



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 2—जुलाई 8, 2011 (आषाढ़ 11, 1933)

No. 27]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 2—JULY 8, 2011 (ASADHA 11, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2011

सेना शाखा

सं. 285, दिनांक 26 मई 2011--राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 3 विशेष
70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(क) निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके
17 सितम्बर 2010 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक
में 17 सितम्बर 2010 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

आईसी सं. आर्बटित, नाम, एसएस सं. तथा आर्म/सर्विस

(आईसी-66537वाई) विजेंद्र सिंह यादव (एसएस-41512एफ), मैक
इन्फैन्ट्री

(आईसी-66540वाई) पंकज कुमार रावत (एसएस-41515पी),
एएससी

(आईसी-66541एफ) के के सरीष (एसएस-41516एक्स), एएडी

(आईसी-66542के) रोहित जाखड (एसएस-41517ए), एसी

(आईसी-66544पी) कृष्णा कांत बाजपेई (एसएस-41523एन),

इन्फैन्ट्री

(आईसी-66545एक्स) राहुल कसाना (एसएस-41524डब्ल्यू), इंट

(आईसी-66546ए) जगन्नाथ गौरव शर्मा (एसएस-41525वाई), आर्टी

(आईसी-66548एल) त्रिवेदी निशीथ जयंतीलाल (एसएस-41527के),

आर्टी

(आईसी-66549एन) मधुसूदन बी एस (एसएस-41529पी), आर्टी

(आईसी-66551एल) धर्मवीर सिंह चौहान (एसएस-41531एम),

आर्टी

(आईसी-66552एन) रविंद्र सिंह राठौड़ (एसएस-41533एक्स), ईएमई

(आईसी-66553डब्ल्यू) राजपाल (एसएस-41535एच), आर्टी

(आईसी-66554वाई) देशपांडे अनिरुद्ध बालकृष्ण (एसएस-
41536एल), आर्टी

(आईसी-66556के) अरुण कुमार एम एस (एसएस-41538डब्ल्यू),
आर्टी

(आईसी-66557एम) जगमोहन मेहरा (एसएस-41539वाई), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66558पी) सौरभ समीर (एसएस-41540एन), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66559एक्स) आनंद सिंह (एसएस-41542वाई), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66560एम) मोहित दुबे (एसएस-41544के), एसी
 (आईसी-66561पी) गिरीश ठाकुर (एसएस-41545एम), आर्टी
 (आईसी-66562एक्स) किसलय सिंह (एसएस-41546पी), आर्टी
 (आईसी-66563ए) अम्बारिश महंता (एसएस-41547एक्स),
 इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66564एच) वैभव वडेरा (एसएस-41548ए), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66566एन) कपिल शर्मा (एसएस-41550एक्स), ईएमई
 (आईसी-66567डब्ल्यू) पवन कुमार बोहरा (एसएस-41551ए),
 इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66568वाई) महिपाल सिंह (एसएस-41552एच), एओसी
 (आईसी-66569एफ) लक्ष्य प्रताप सिंह शेखावत (एसएस-
 41553एल), मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66570डब्ल्यू) उदयन प्राताप सिंह (एसएस-41554एन),
 इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66572एफ) रणजीत सिंह पवार (एसएस-41556वाई),
 इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66573के) सुदीप सिंह (एसएस-41557एफ), मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66574एम) रजनीश पाण्डेय (एसएस-41558के), इंटर
 (आईसी-66576एक्स) हेमंत मेहता (एसएस-41561के), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66577ए) तरनदीप सिंह गिल (एसएस-41563पी), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66579एल) राजेंद्र जीत सिंह (एसएस-41566एच), आर्टी
 (आईसी-66581एच) विनोद विश्वनाथ (एसएस-41570एल),
 इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66582एल) जगदीश सिंह सामंत (एसएस-41572डब्ल्यू),
 एसी
 (आईसी-66584डब्ल्यू) नितेश सिंह (एसएस-41575के), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66585वाई) रोवेन लेसली ब्रास (एसएस-41576एम),
 इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66586एफ) आकाश शर्मा (एसएस-41577पी), आर्टी
 (आईसी-66587के) अवधेश चौधरी (एसएस-41578एक्स), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66589पी) अजीत कुमार अग्रवाल (एसएस-41582ए),
 इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66590के) आनंद बहुगुणा (एसएस-41583एच), एसी
 (आईसी-66591एम) निखिल झोपे (एसएस-41584एल), आर्टी

(आईसी-66593एक्स) एस थेंखोमंग बाईटे (एसएस-41588एफ),
 इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66594ए) सौरभ गुप्ता (एसएस-41590वाई), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66595एच) अर्नब बैनर्जी (एसएस-41591एफ), आर्टी
 (आईसी-66596एल) मंजीत सिंह (एसएस-41592के), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66597एन) संदीप कौशल (एसएस-41593एम), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66598डब्ल्यू) देवेन्द्र सिंह (एसएस-41594पी), आर्टी
 (आईसी-66600एच) पटेल गोपीनंदन दिनेश कुमार (एसएस-
 41596ए), इंटर
 (आईसी-66602एन) विवेक कुमार शर्मा (एसएस-41599एन), एसी
 (आईसी-66603डब्ल्यू) अभिनव मन्मथ (एसएस-41600एक्स), आर्टी
 (आईसी-66605एफ) सुरेंद्रा एस (एसएस-41602एच), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66606के) मनीष ध्यानी (एसएस-41604एन), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66608पी) संदीप कुमार शर्मा (एसएस-41606वाई),
 ईएमई
 (आईसी-66609एक्स) शैवाल श्रीवास्तवा (एसएस-41607एफ),
 इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66610एम) कृष्ण भण्डारी (एसएस-41608के), इंटर
 (आईसी-66611पी) रजत बाली (एसएस-41609एम), आर्टी
 (आईसी-66612एक्स) अक्षय लाम्बा (एसएस-41611के), एसी
 (आईसी-66613ए) पियुष कुमार छेत्री (एसएस-41615ए), आर्टी
 (आईसी-66614एच) निखिल धवन (एसएस-41618एन), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66615एल) कुलदीप सिंह चंदी (एसएस-41619डब्ल्यू),
 इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66616एन) विकास काद्यान (एसएस-41621एन), इंटर
 (आईसी-66617डब्ल्यू) धनराज सिंह (एसएस-41622डब्ल्यू), एसी
 (आईसी-66618वाई) अनिल कुमार चाहर (एसएस-41623वाई),
 इंटर
 (आईसी-66619एफ) हिममत सिंह (एसएस-41624एफ), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66620डब्ल्यू) रजत कुमार बिरमान (एसएस-41626एम),
 इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66622एफ) कोंगेटीरा नचाप्पा थीम्माया (एसएस-
 41629ए), आर्टी
 (आईसी-66623के) सचिन भटनागर (एसएस-41630पी), आर्टी
 (आईसी-66624एम) अमित यादव (एसएस-41631एक्स), आर्टी
 (आईसी-66625पी) सुरज भान सिंह (एसएस-41632ए), आर्टी
 (आईसी-66626एक्स) निर्वाण बाजपेई (एसएस-41633एच), एसी

(आईसी-66628एच) सौरभ बाली (एसएस-41637वाई), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66631एच) राज शोबी शामी (एसएस-41642के), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66632एल) विनीत शेखर प्रेम (एसएस-41643एम), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66635वाई) गगनदीप सिंह राठौड़ (एसएस-41650एच), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66637के) निरंजन सिंह देवल (एसएस-41652एन), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66638एम) स्वपनिल शिवजी खाल्कर (एसएस-41653डब्ल्यू), इंजीनियर्स
 (आईसी-66639पी) जिम्मी जेम्स (एसएस-41654वाई), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66640के) रमन अधिकारी (एसएस-41655एफ), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66641एम) शशी कुमार के एस (एसएस-41656के), एएडी
 (आईसी-66642पी) सकून (एसएस-41659एक्स), एसी
 (आईसी-66643एक्स) ब्लेसन के डेनियल (एसएस-41660एम), एएडी
 (आईसी-66644ए) अजय कुमार भारद्वाज (एसएस-41661पी), आर्टी
 (आईसी-66645एच) आढाव सचिन जगन्नाथ (एसएस-41662एक्स), ईएमई
 (आईसी-66646एल) अर्जुन कपूर (एसएस-41664एच), एसी
 (आईसी-66647एन) सुनिल कुमार (एसएस-41666एन), आर्टी
 (आईसी-66648डब्ल्यू) राजेंद्र नेगी (एसएस-41667डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66649वाई) सौभम चालंबा (एसएस-41668वाई), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66650एन) प्रदीप कुमार यादव (एसएस-41669एफ), एएडी
 (आईसी-66652वाई) प्रवीण आर (एसएस-41672एफ), एएडी
 (आईसी-66653एफ) विकास गुलेरिया (एसएस-41673के), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66654के) हेमेंद्र वासुदेवा (एसएस-41675पी), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66655एम) रोशन कृष्णप्पा (एसएस-41676एक्स), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66656पी) शशांक शेखर (एसएस-41677ए), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66659एच) नवीन चौहान (एसएस-41682एल), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66660एक्स) अमित कुमार शुक्ला (एसएस-41683एन), आर्टी
 (आईसी-66662एच) सुरेश कुमार डे (एसएस-41685वाई), आर्टी
 (आईसी-66663एल) चंद्रसेनन बी आर (एसएस-41689पी), इन्फैन्ट्री

(आईसी-66666वाई) शिव नारायण शुक्ला (एसएस-41693एक्स), इंजीनियर्स
 (आईसी-66667एफ) कुलकर्णी ओंकार किशोर (एसएस-41694ए), आर्टी
 (आईसी-66668के) रुद्र आशीष पाण्डेय (एसएस-41695एच), आर्टी
 (आईसी-66669एम) रणदिवे संदीप नंदकुमार (एसएस-41696एल), आर्टी
 (आईसी-66670एफ) अभिलाष के एम (एसएस-41698डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66672एच) अवनीश पी सिंह (एसएस-41700एच), आर्टी
 (आईसी-66674एक्स) सुदीप सिंह (एसएस-41704वाई), आर्टी
 (आईसी-66676एच) रिच्वी अश्विन संतोष (एसएस-41706के), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66678एन) राहुल देव (एसएस-41710एम), इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66680एल) राहुल बघेल (एसएस-41712एक्स), ईएमई
 (आईसी-66681एन) प्रदीप सिंह गोहिल (एसएस-41713ए), एसी
 (आईसी-66682डब्ल्यू) रंजीत कुमार झा (एसएस-41714एच), मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-66683वाई) शंकर पति बनर्जी (एसएस-41716एन), आर्टी
 (आईसी-66684एफ) दीपक सुयाल (एसएस-41717डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :--

वेतन वृद्धि के लिए तारीख 17 सितम्बर 2005

पदोन्नति की तारीख 17 अप्रैल 2006

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर कक्षा वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई है।

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 03 मार्च 2011 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर के रैंक में 03 मार्च 2011 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

आईसी सं. आबंटित, नाम, एसएस सं. तथा आर्म/सर्विस

(आईसी-65287डब्ल्यू) देवेन्द्र कुमार सिंह (एसएस-39038ए), इन्फैन्ट्री

(आईसी-65289एफ) षाजी के (एसएस-39053पी), एओसी

(आईसी-65292एफ) मयंक दुबे (एसएस-39075एन), इन्फैन्ट्री

उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :--

वेतन वृद्धि के लिए तारीख	03 मार्च 2001
पदोन्नति के लिए तारीख	03 नवम्बर 2002 (इस बैच के अधिकारियों को जिन्हें 5 वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया था उनकी तुलना में 12 महीने वरिष्ठता कम करने के बाद)

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष में स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है तथा जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष में स्थाई कमीशन प्रदान किया गया उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई है।

वि एस रानडे
कर्नल
कर्नल सेना सचिव-7

सेना मुख्यालय
ई एन सी शाखा

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय

सं. 286, दिनांक 26 मई 2011--सक्षम प्राधिकारी सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत उनके नाम के सामने दर्शायी गई अवधि के लिए अथवा इनकी सेवा निवृत्ति अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, उस समय तक ग्रेड वेतन रु. 4,800/- वेतन बैंड-2 में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी (ग्रुप बी राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं :--

नाम तथा अवधि

अनीता कथुरिया, 01 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011
कल्याण घोष, 01 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011
आर सी पाण्डेय, 01 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011
कान्ता, 01 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011
अकिल कौश, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011
जग्गू राम, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011
अशोक कुमार राठौड़, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011
सुरेश चन्द बडौला, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011
महावीर सिंह गौतम, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011
सावित्री बहल, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011
रमेश बाबू, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011

एस के चटर्जी, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011

राजेश कुमार सिंह, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011

बी बी वाही, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011

सुनीता सूद, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011

टी पी सिंह, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011

ए के चाँदी, 01 जनवरी 2011 से 31 जनवरी 2011

यह नियुक्तियाँ पूर्णतया कामचलाऊ आधार पर हैं तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

अनिल कुमार लारोइया
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 287, दिनांक 27 मई 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :--

जगदीश प्रसाद साहू, वैज्ञानिक 'एफ' को उन्नत प्रणाली प्रयोगशाला (एएसएल), हैदराबाद में एक साल की परखावधि पर दिनांक 13 सितम्बर 2010 (पूर्वाह्न) से वेतनमान रु. 37,400--67,000/- (पे बैंड-4) + ग्रेड पे रु. 8,900/- के वेतनमान में।

विजया विट्टल आर, वैज्ञानिक 'एफ' को अनुसंधान केन्द्र इमारत (आरसीआई), हैदराबाद में एक साल की परखावधि पर दिनांक 24 मई 2010 (पूर्वाह्न) से वेतनमान रु. 37,400--67,000/- (पे बैंड-4) + ग्रेड पे रु. 8,900/- के वेतनमान में।

नरसिंह साहु
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

थल सेना शाखा

सं. 288, दिनांक 27 मई 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना
स्थायी कमीशन
(सेना चिकित्सा कोर)

लेफ्ट कर्नल (व समकक्ष) कर्नल (व समकक्ष) के पद पर

सी डी एस कटोच (एमआर-06212एएफ), 30 जनवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06 अप्रैल 2009 से दी जाती है।

के पी रेड्डी (एमआर-05537एच), 19 फरवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06 जून 2009 से दी जाती है।

एम एस. संधू (एमआर-05563के), 28 मई 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 15 जुलाई 2009 से दी जाती है।

आलोक शर्मा (एमआर-05197एल), 22 फरवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 19 अक्टूबर 2009 से दी जाती है।

ए वी अकुलवार (एमआर-05765एल), 01 फरवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 नवम्बर 2009 से दी जाती है।

आर रावतजी (एमआर-05425एच), 30 जनवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 नवम्बर 2009 से दी जाती है।

ए एस ढिल्लन (एमआर-06294पी), 30 जनवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 नवम्बर 2009 से दी जाती है।

के प्रभाकरन (एमआर-05541एल), 03 फरवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07 नवम्बर 2009 से दी जाती है।

एन रामकृष्णन (एमआर-05632पी), 29 जनवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है।

जयदेव बिश्वास (एमआर-06459एच), 19 फरवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है।

आर के चौधरी (एमआर-05987ए), 26 अप्रैल 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05 जनवरी 2010 से दी जाती है।

डी के श्रीवास्तव (एमआर-05715ए), 30 जनवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05 जनवरी 2010 से दी जाती है।

ए के सूद (एमआर-05795एच), 30 जनवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07 जनवरी 2010 से दी जाती है।

एस कश्यप (एमआर-05718एन), 12 मार्च 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09 जनवरी 2010 से दी जाती है।

ए के त्यागी (एमआर-05720एल), 03 फरवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 18 जनवरी 2010 से दी जाती है।

एस मेहरोत्रा (एमआर-05723वाई), 30 जनवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 28 जनवरी 2010 से दी जाती है।

एस के मुखर्जी (एमआर-05725के), 10 फरवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 28 जनवरी 2010 से दी जाती है।

आर के सिंह (एमआर-05726एम), 30 जनवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 28 जनवरी 2010 से दी जाती है।

एस सिंह (एमआर-05729ए), 01 फरवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 28 जनवरी 2010 से दी जाती है।

ए बहादुर (एमआर-05730पी), 29 जनवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 28 जनवरी 2010 से दी जाती है।

सी जी मुरलीधरण (एमआर-05731एक्स), 12 मार्च 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 28 जनवरी 2010 से दी जाती है।

ए गलागली (एमआर-05734एच), 30 जनवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 28 जनवरी 2010 से दी जाती है।

सैबल आद्य (एमआर-05735एन), 28 मार्च 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 28 जनवरी 2010 से दी जाती है।

आर मैगन (एमआर-05737वाई), 05 फरवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 28 जनवरी 2010 से दी जाती है।

डी अरोड़ा (एमआर-05741एफ), 29 जनवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 28 जनवरी 2010 से दी जाती है।

पी पी राव (एमआर-05742के), 30 जनवरी 2010

आर प्रकाश (एमआर-05746ए), 12 जून 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 30 जनवरी 2010 से दी जाती है।

वाई के यादव (एमआर-05759एक्स), 16 मार्च 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 30 जनवरी 2010 से दी जाती है।

एस श्रीकला (एमआर-06470एफ), 30 जनवरी 2010,

प्रदीप कुमार (एमआर-06468के), 26 फरवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है।

एस सोनी (एमआर-06492ए), 05 अप्रैल 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है।

पी मित्तल (एमआर-05826एक्स), 17 अगस्त 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है।

ए खुलर (एमआर-05832एल), 07 मई 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है।

आलोक सेठी (एमआर-05838एम), 25 फरवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है।

एस पटोले (एमआर-05840के), 26 फरवरी 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है।

इंद्रोनील घोष (एमआर-05843एक्स), 01 फरवरी 2010

बी पी सिंह (एमआर-06473पी), 02 अप्रैल 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है।

अवतार नारायण (एमआर-05831एच), 01 फरवरी 2010

आर गनानाशेकर (एमआर-05980डब्ल्यू), 13 मार्च 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है।

एस बोस (एमआर-06141एल), 01 मार्च 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है।

वी वेंकटेशन (एमआर-06143डब्ल्यू), 01 फरवरी 2010

एन कन्नन (एमआर-05903एफ), 25 मार्च 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04 फरवरी 2010 से दी जाती है।

एस सेन (एमआर-05906पी), 15 मार्च 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05 फरवरी 2010 से दी जाती है।

वी मारवाह (एमआर-05910एक्स), 01 अप्रैल 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 मार्च 2010 से दी जाती है।

एस के सिंह (एमआर-05912एच), 01 अप्रैल 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05 मार्च 2010 से दी जाती है।

डी विवेकानंद (एमआर-05913एल), 01 अप्रैल 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05 मार्च 2010 से दी जाती है।

ए के श्रीवास्तव (एमआर-05916वाई), 01 अप्रैल 2010

आर के गुप्ता (एमआर-05921के), 14 मई 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है।

वी माथुर (एमआर-05926एच), 17 मई 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 मई 2010 से दी जाती है।

एस के घई (एमआर-05924एक्स), 05 जुलाई 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जून 2010 से दी जाती है।

एस रामकृष्ण (एमआर-05929डब्ल्यू), 01 जून 2010

आर एम जोशी (एमआर-05930एल), 04 अगस्त 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 15 जून 2010 से दी जाती है।

धर्मेंश (एमआर-05931एन), 01 जुलाई 2010

टी मधुसूदन (एमआर-05935के), 13 जुलाई 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05 जुलाई 2010 से दी जाती है।

वी के बरनवाल (एमआर-05939ए), 12 जुलाई 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07 जुलाई 2010 से दी जाती है।

आर पी एस गंभीर (एमआर-05905एम), 10 जुलाई 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 08 जुलाई 2010 से दी जाती है।

वी पी माथुर (एमआर-06711डब्ल्यू), 07 अगस्त 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 08 जुलाई 2010 से दी जाती है।

जे बी सिंह (एमआर-05993एन), 12 जुलाई 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 08 जुलाई 2010 से दी जाती है।

एस खन्ना (एमआर-05994डब्ल्यू), 01 अगस्त 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 08 जुलाई 2010 से दी जाती है।

अरूणा मेनन (एमआर-06502वाई), 06 अगस्त 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 19 जुलाई 2010 से दी जाती है।

एस चैटर्जी (एमआर-05999पी), 06 अगस्त 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04 अगस्त 2010 से दी जाती है।

कुणाल चैटर्जी (एमआर-06000डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 25 अगस्त 2010 से दी जाती है।

आर के चेंगप्पा (एमआर-06017के), 01 अक्टूबर 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 25 अगस्त 2010 से दी जाती है।

ए देवगन (एमआर-06015वाई), 15 सितम्बर 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है।

वी नेगी (एमआर-07384एच), 14 सितम्बर 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है।

जे देबनाथ (एमआर-06018एम), 15 सितम्बर 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है।

मेजर से ले कर्नल के पद पर

रामा शंकर राजभर (एम आर-7584वाई), एएमसी, 13 सितम्बर 2006

शान्तनु बनर्जी (एमआर-06937एफ), एएमसी, 10 जुलाई 2010

संजीव हजारीका (एमएस-13918वाई)(एमआर-08201एन), 10 दिसम्बर 2010

रोशनी जगदीप अविचन्दानी (एमएस-13781एक्स), 04 जनवरी 2011

विकास चावला (एमएस-13941एम)(एमआर-07920वाई), एएमसी, 10 जनवरी 2011

सावन मिलिन्द मोगाराव (एमएस-14043ए)(एमआर-07991एफ), एएमसी, 22 जनवरी 2011

एच रवि रामामूर्ति (एमआर-07246एफ), एएमसी, 05 फरवरी 2011

एन के जैन (एमआर-07245वाई), एएमसी, 05 फरवरी 2011

मनीष मनराई (एमआर-07244डब्ल्यू), एएमसी, 05 फरवरी 2011

एम सी साव (एमआर-07243एन), एएमसी, 05 फरवरी 2011

करुणेश चन्द (एमआर-07238एच), एएमसी, 05 फरवरी 2011

अनामिका सिन्हा (एमआर-07266पी), एएमसी, 05 फरवरी 2011

हसीम पी आई (एमआर-07257ए), एएमसी, 05 फरवरी 2011

ए के बटनवाल (एमआर-07255एच), एएमसी, 05 फरवरी 2011

भावना हुडा (एमआर-07254ए), एएमसी, 05 फरवरी 2011

कविता मनराय (एमआर-07248ए), एएमसी, 05 फरवरी 2011

अंशु प्रसाद (एमआर-07272एच), एएमसी, 05 फरवरी 2011

ऊषा ढिल्लन (एमआर-07286एच), एएमसी, 05 फरवरी 2011

वसुंधरा सिंह (एमआर-07268ए), एएमसी, 05 फरवरी 2011

ओंकार सिंह (एमआर-07247के), एएमसी, 05 फरवरी 2011

नीरज गर्ग (एमआर-07265एम), एएमसी, 05 फरवरी 2011

प्रिती त्रिपाठी (एमआर-08321एम), एएमसी, 11 दिसम्बर 2010

अहीजीत बनर्जी (एमआर-07298एक्स), एएमसी, 05 फरवरी 2011

नवीन कश्यप (एमआर-07291एन), एएमसी, 05 फरवरी 2011

मनीश झा (एमआर-07278के), एएमसी, 05 फरवरी 2011

ऐ जयचन्द्रा (एमआर-07277एफ), एएमसी, 05 फरवरी 2011

राजीव कुमार (एमआर-07075ए), एएमसी, 20 जनवरी 2010

अनिल कुमार गुप्ता (एमआर-08098एन), एएमसी, 11 अक्टूबर 2010

अश्विनी कुमार झाओ (एमआर-08746एक्स), 11 अक्टूबर 2010

गुरबिन्दर सिंह (एमआर-08817एफ), एएमसी, 19 दिसम्बर 2010

नवीन त्रिपाठी (एमआर-08680ए), एएमसी, 06 जनवरी 2011

ज्योति गुप्ता (एमआर-07979ए), एएमसी, 11 जनवरी 2011

सर्जन ले से सर्जन ले कमाण्डर के पद पर

अश्विनी जाखड़ (75920डब्ल्यू)(एमआर-08342एच), एएमसी, 20 फरवरी 2011

शानिया खाँ (एमएस-15464पी)(एमआर-09056एन), एएमसी, 22 जनवरी 2011

रोमा राय (एमआर-08337एक्स), एएमसी, 20 फरवरी 2011

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मासं.)

थल सेना विभाग

सं. 289, दिनांक 30 मई 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

सेना शिक्षा कोर

सूबेदार मेजर रैंक में

सूबेदार विरेन्द्र सिंह (जेसी-802720एफ), 01 जनवरी 2011

सूबेदार उर्बादित भट्ट (जेसी-802518एन), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार रैंक में

हवलदार संजीव कुमार (सं. 9511146के अब जेसी-804454एम), 01 नवम्बर 2010

हवलदार चन्द्रशेखर बी (सं. 9511041ए अब जेसी-804456एक्स), 20 जनवरी 2011@

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 9511045डब्ल्यू अब जेसी-804457ए), 22 दिसम्बर 2010@

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार बहादुर सिंह शेखावत (सं. 9511155एल अब जेसी-804462एल), 01 जनवरी 2011

हवलदार विजय कुमार एस (सं. 9511159एफ अब जेसी-804464डब्ल्यू), 14 जनवरी 2011#

#(नायब सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार/लिपिक मृत्युंजय दास (सं. 9510167एन अब जेसी-804465वाई), 01 फरवरी 2011

हवलदार पी वैद्यनाथन (सं. 9511173एन अब जेसी-804468एम), 01 फरवरी 2011

हवलदार जी रवि कुमार (सं. 9511178एम अब जेसी-804469पी), 01 फरवरी 2011

हवलदार शिव भजन सोनी (सं. 9511179पी अब जेसी-804470के), 01 फरवरी 2011

हवलदार कोल्लु वेणु गोपाल (सं. 9511180के अब जेसी-804471एम), 01 फरवरी 2011

हवलदार के शिव प्रसाद दास (सं. 9511181एम अब जेसी-804472पी), 01 फरवरी 2011

हवलदार मुरलीधरन पी (सं. 9511187एन अब जेसी-804475एच), 01 फरवरी 2011

हवलदार हीरा लाल (सं. 9511188डब्ल्यू अब जेसी-804476एल), 01 फरवरी 2011

हवलदार अनिल कुमार के सी (सं. 9511192वाई अब जेसी-804477एन), 01 फरवरी 2011

प्रेम प्रकाश
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 290, दिनांक 30 मई 2011--राष्ट्रपति महोदया, खुश होकर निम्नलिखित पदोन्नतियां करती हैं :--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

गार्ड ब्रिगेड

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सतपाल सिंह (जेसी-402811एक्स), 01 जून 2010

सूबेदार गणेश चंद (जेसी-402812ए), 02 जून 2010*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

सूबेदार श्याम बाबू (जेसी-403259पी), 01 सितम्बर 2010

सूबेदार भगवाना राम बिशनोई (जेसी-403285डब्ल्यू), 03 मई 2010*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

सूबेदार कुलबीर सिंह (जेसी-403676एफ), 01 जुलाई 2010

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार कंवर पाल (जेसी-403625एन), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार जगवीर सिंह (जेसी-403629के), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार राकेश कुमार सिंह (जेसी-403633एम), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार राज कुमार मंडल (जेसी-403757एफ), 13 जुलाई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार तरण तारण (जेसी-403770एल), 01 जून 2010

नायब सूबेदार देश पाल सिंह (जेसी-403771एन), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार दिलीप के आर बोरा (जेसी-403798एल), 01 जून 2010

नायब सूबेदार सुखबीर सिंह (जेसी-403799एन), 29 जून 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार संजय कौशिक (जेसी-403846ए), 01 मई 2010

नायब सूबेदार जय पाल सिंह (जेसी-403857एम), 01 मई 2010

नायब सूबेदार सत्य प्रकाश (जेसी-403870डब्ल्यू), 01 मई 2010

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-403882एल), 20 फरवरी 2010

नायब सूबेदार कृष्ण चंद (जेसी-403899वाई), 01 मई 2010

नायब सूबेदार जमशेद अली (जेसी-403904वाई), 01 मई 2010

नायब सूबेदार बजरंग सिंह (जेसी-403907एम), 04 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गणेशा राम (जेसी-403908पी), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार विदेश कुमार (जेसी-403922एफ), 29 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अवधेश कुमार (जेसी-403925पी), 27 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार बासदेव (जेसी-403927ए), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार नरेश सिंह (जेसी-403930ए), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार अदविन लाकड़ा (जेसी-403943एक्स), 15 मई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राजेंद्र कुमार यादव (जेसी-403949वाई), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार दिनेश चंद्र (जेसी-403955एम), 01 मई 2010

नायब सूबेदार गुरचरण सिंह (जेसी-403959एच), 02 अक्टूबर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार संत लाल (जेसी-403970एफ), 20 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अनिल कुमार (जेसी-403974एक्स), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार रामांद तिवारी (जेसी-403984एफ), 18 जुलाई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-403990पी), 20 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शिंदे सोवाना मानिक (जेसी-404013एच), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार शिवजी (जेसी-404016डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार टी पदमानाबन (जेसी-404019के), 10 जून 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राम सेवक यादव (जेसी-404041पी), 01 जून 2010

नायब सूबेदार प्रताप कुमार सिंह (जेसी-404053के), 01 मई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह (जेसी-404056एक्स), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार किशोरी प्रसाद गोप (जेसी-404073एक्स), 26 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार महेंद्र सिंह (जेसी-404097एफ), 01 मई 2010

नायब सूबेदार कुंवर सिंह (जेसी-404098के), 02 जुलाई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 मई 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार तारा शर्मा (जेसी-404132वाई), 28 अप्रैल 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 मार्च 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गोपी चन्द (जेसी-404138ए), 12 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कंवर पाल सिंह (जेसी-404139एच), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार श्री संतोश कुमार शर्मा (जेसी-404177वाई), 22 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार भोला खरिआ (जेसी-404199एक्स), 12 अप्रैल 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार तुलसी सिंह (जेसी-404202एम), 10 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुरिंदर कुमार (जेसी-404204एक्स), 02 जुलाई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लाल चंद (जेसी-404209डब्ल्यू), 24 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार यशी लाल यादव (जेसी-404210एल), 28 अप्रैल 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कधोरे सिंह राठौर (जेसी-404221एक्स), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार मेजर सिंह (जेसी-404231एफ), 04 अक्टूबर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रोहितास यादव (जेसी-404235एक्स), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार विरेश कुमार शर्मा (जेसी-404256एन), 02 अक्टूबर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) कुंजी लाल (जेसी-404039एक्स), 01 मई 2010

नायब सूबेदार (क्लर्क) फूल कुमार (जेसी-404040एम), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रामजी भारती (सं. 13688236एम अब जेसी-404660एच), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार दिनेश कुमार पांडेय (सं. 13688420एक्स अब जेसी-404612एच), 18 जुलाई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (सं. 13688488वाई अब जेसी-404639ए), 20 अगस्त 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2010 से दी जाती है)

हवलदार लाल बिहारी यादव (सं. 13688863वाई अब जेसी-404630एल), 30 अगस्त 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार कुशल पाल सिंह तोमर (सं. 13688880वाई अब जेसी-404600एन), 01 मई 2010

हवलदार भिया राम (सं. 13689018ए अब जेसी-404632डब्ल्यू), 20 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

हवलदार सूरज भान शर्मा (सं. 13689199डब्ल्यू अब जेसी-404606पी), 01 जून 2010

हवलदार हर लाल सिंह (सं. 13689281एल अब जेसी-404663डब्ल्यू), 02 अक्टूबर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार लोकेश कुमार (सं. 13689292एक्स अब जेसी-404624एक्स), 20 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार सुरेश चंद (सं. 13689389एच अब जेसी-404640पी), 21 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 13689430एन अब जेसी-404641एक्स), 02 अक्टूबर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार भंगरा राम विशनोई (सं. 13689491एल अब जेसी-404647वाई), 06 अक्टूबर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार नंदन सिंह परिहार (सं. 13689502एम अब जेसी-404620एफ), 05 अगस्त 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार रोहितास कुमार (सं. 13689535एक्स अब जेसी-404653एम), 04 अक्टूबर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार विक्रम सिंह (सं. 13689570ए अब जेसी-404652के), 01 सितम्बर 2010

हवलदार कृष्ण कुमार (सं. 13689672डब्ल्यू अब जेसी-404588एक्स), 01 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार तेज सिंह (सं. 13689789डब्ल्यू अब जेसी-404618के), 01 जुलाई 2010

हवलदार शशि पाल (सं. 13689799वाई अब जेसी-404598एफ), 01 मई 2010

हवलदार श्री दिनेश सिंह चौहान (सं. 13689912एच अब जेसी-404642ए), 01 अगस्त 2010

हवलदार सुभाष चंद्र (सं. 13689958एल अब जेसी-404607एक्स),
03 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार त्रिलोक सिंह (सं. 13690092एन अब जेसी-404665एफ),
01 अक्टूबर 2010

हवलदार चन्द्र सेखरन चेतियार टी (सं. 13690120पी अब जेसी-
404625ए), 30 अगस्त 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 30 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार संतोश के आर बोरो (सं. 13690204एच अब जेसी-
404613एल), 02 जुलाई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 22 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार सुखबीर सिंह (सं. 13690315ए अब जेसी-404654पी),
10 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार पी पांडी राज (सं. 13690578वाई अब जेसी-404614एन),
02 जुलाई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार आशा राम (सं. 13690612एन अब जेसी-404619एम),
21 जुलाई 2010

हवलदार पंकज कुमार यादव (सं. 13690625एल अब
जेसी-404615डब्ल्यू), 02 जुलाई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार महेश चंद्र (सं. 13691039पी अब जेसी-404622एम),
06 अगस्त 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार बिरेंद्र कुमार मिश्रा (सं. 13691077एल अब जेसी-
404611ए), 27 अप्रैल 2010

हवलदार जाहन फ्रांसिस (सं. 13691272एच अब जेसी-
404579डब्ल्यू), 08 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 12 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार सालिंद्र कुमार (सं. 13691412के अब जेसी-404564एन),
28 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार शिशु पाल सिंह (सं. 13691451एच अब जेसी-
404601डब्ल्यू), 01 मई 2010

हवलदार धनवर राम (सं. 13691459पी अब जेसी-404603एफ),
01 मई 2010

हवलदार राजेंद्र सिंह (सं. 13691522वाई अब जेसी-404604के),
01 मई 2010

हवलदार धर्मेन्द्र सिंह परिहार (सं. 13691609ए अब जेसी-
404593एच), 01 अप्रैल 2010

हवलदार संतोश सिंह चतुर्वेदी (सं. 13691769ए अब जेसी-
404602वाई), 01 मई 2010

हवलदार राजिंद्र सिंह (सं. 13691799एक्स अब जेसी-404655एक्स),
06 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार राज पाल (सं. 13691806एच अब जेसी-404608ए),
01 जून 2010

हवलदार खेम पाल सिंह (सं. 13691890एन अब जेसी-404609एच),
01 जून 2010

हवलदार शिवानंदा (सं. 13692025एफ अब जेसी-404616वाई),
29 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार मेका राम बिशनोई (सं. 13692083एल अब
जेसी-404605एम), 01 मई 2010*

हवलदार सतेंद्र कुमार सिंह (सं. 13692183डब्ल्यू अब जेसी-
404547एन), 18 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 03 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

हवलदार श्री इनायत खान (सं. 13692211एक्स अब जेसी-
404610एक्स), 17 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार राज नाथ मौर्या (सं. 13692353पी अब जेसी-404555एम),
25 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 26 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 13692428एफ अब जेसी-
404582डब्ल्यू), 19 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 26 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार अजय कुमार पांडेय (सं. 13692944डब्ल्यू अब जेसी-404587पी), 05 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार सालवे अर्जुन महादेव (सं. 13693233एच अब जेसी-404635के), 13 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

हवलदार बिक्रम सिंह (सं. 15612239वाई अब जेसी-404573पी), 12 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार राजेश कुमार (सं. 15619286वाई अब जेसी-404595एन), 16 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) बृजराज सिंह तोमर (सं. 13690674एन अब जेसी-404596डब्ल्यू), 01 मई 2010

हवलदार (क्लर्क) बृज किशोर ओझा (सं. 15359808एन अब जेसी-404597वाई), 01 मई 2010

हवलदार (क्लर्क) बिष्णु नारायण सतपथी (सं. 15361753एन अब जेसी-404617एफ), 01 जुलाई 2010

हवलदार (क्लर्क) शाह नवीन चंद्र शंकर लाल (सं. 15362409पी अब जेसी-404631एन), 01 जुलाई 2010

हवलदार (क्लर्क) रविदेव सिंह (सं. 13689795एच अब जेसी-404648एफ), 01 सितम्बर 2010

हवलदार (क्लर्क) शत्रुघ्न राय (सं. 2684097एच अब जेसी-404658एल), 01 अक्टूबर 2010

मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार संजय कुमार झा (जेसी-421253डब्ल्यू), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार शिव कुमार (जेसी-420717डब्ल्यू), 02 मार्च 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रमेश चंद्र, एस सी (जेसी-420797वाई), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार सरजीत सिंह (जेसी-420803एफ), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार तारा बहादुर पुन (जेसी-420874एच), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार राम पाल (जेसी-420901एफ), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार जगत सिंह पनवार (जेसी-420937ए), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार गनदीप सिंह (जेसी-420975डब्ल्यू), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार हरींदर सिंह (जेसी-420994एफ), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार नोबत सिंह (जेसी-421069एल), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार तेज पाल (जेसी-421073एन), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-421125वाई), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार तेज पाल (जेसी-421126एफ), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-421214एक्स), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार देबराजा महाराणा (जेसी-421367एफ), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-421058वाई), 18 दिसम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लालू प्रसाद (जेसी-420986एच), 27 जनवरी 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बलवंत सिंह (जेसी-420555डब्ल्यू), 11 जनवरी 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार आनंद सिंह (जेसी-421326एक्स), 21 जनवरी 2011*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार प्रभु सिंह (जेसी-420605डब्ल्यू), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार मोहन सिंह रावत (जेसी-420721वाई), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार रमेश चंदर (जेसी-420759एच), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार रोशन लाल शर्मा (जेसी-420774एक्स), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार सवाई सिंह (जेसी-420839ए), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार मानन पेरुमाल पी (जेसी-420915एफ), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार रवि दत्त शर्मा (जेसी-421012डब्ल्यू), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार नवल किशोर सिंह (जेसी-421039एन), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार बीर वल (जेसी-421078एम), 15 फरवरी 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार ससी कुमार जी (जेसी-421188एफ), 03 फरवरी 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार किशन सिंह गैना (जेसी-421252एन), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार धीरज कुमार (जेसी-421304वाई), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार कमोर सिंह (जेसी-421318वाई), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार साहब सिंह (जेसी-421324एम), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार एम मुरुगन (जेसी-421366वाई), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार सुदर्स बी (जेसी-421179ए), 03 फरवरी 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रणदिवे राजेंद्र सदाशिव (जेसी-420821के), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार राम प्रताप गुर्जर (जेसी-420872एक्स), 01 मार्च 2011

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) गिरधारी लाल (जेसी-420751डब्ल्यू), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार (लिपिक) राज बीर (जेसी-420752वाई), 01 मार्च 2011

सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

नायब सूबेदार (एसकेटी) कैलाश चन्द्र लखेरा (जेसी-421198एल), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार (एसकेटी) रविद्रन नायर के एस (जेसी-421301एल), 01 मार्च 2011

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार विरेंद्र सिंह (जेसी-420963एफ), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार वरीन्दर सिंह (जेसी-420973एल), 12 जनवरी 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार इन्द्रा भूषण पांडे (जेसी-421117ए), 12 मार्च 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-420655एफ), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार बिरेंद्र सिंह (जेसी-420911एल), 02 मार्च 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राजू थापा (जेसी-420966पी), 04 मार्च 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-420967एक्स), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार बसुरोथु श्रीनिवासा राव (जेसी-420996एम), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार श्री विनोद सिंह (जेसी-421017पी), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार रोहताश सिंह (जेसी-421025एन), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार शंकर बाडिगर (जेसी-421032के), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार कन्हैया लाल गुर्जर (जेसी-421063के), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार राजू कुमार (जेसी-421119एल), 01 मार्च 2011

नायब सूबेदार कोनिथम वेंकट राव (जेसी-421180पी), 02 मार्च 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार भंवर सिंह (जेसी-421181एक्स), 02 मार्च 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार ए गोविंदा स्वामी (जेसी-421275पी), 03 मार्च 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पी जयासीलन (सं. 14916216एक्स अब जेसी-421902डब्ल्यू), 01 मार्च 2011

हवलदार एस सुंदरेसन (सं. 14916220ए अब जेसी-421903वाई), 01 मार्च 2011

हवलदार पुरषोत्तम सिंह (सं. 14916334एल अब जेसी-421904एफ), 01 मार्च 2011

हवलदार संजीव कुमार (सं. 14916335एन अब जेसी-421905के),
16 मार्च 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
काल्पनिक ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

हवलदार रवींद्र कुमार शर्मा (सं. 14916596एफ अब
जेसी-421906एम), 16 मार्च 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

हवलदार लाल सिंह (सं. 14916965एन अब जेसी-421907पी),
01 मार्च 2011

हवलदार रमाकांत सिंह (सं. 14917107एक्स अब जेसी-
421908एक्स), 01 मार्च 2011

हवलदार ज्ञानाप्रगाशम (सं. 14918173एम अब जेसी-421909ए),
01 मार्च 2011

हवलदार शिव पाल जाट (सं. 14917743एल अब जेसी-421910पी),
01 मार्च 2011

हवलदार अजय कुमार ढाका (सं. 14917745डब्ल्यू अब जेसी-
421911एक्स), 01 मार्च 2011

हवलदार शिव कुमार डी (सं. 14919300एच अब जेसी-421912ए),
01 मार्च 2011

हवलदार देवप्पा सरापुरे (सं. 14919359एच अब जेसी-421913एच),
01 मार्च 2011

हवलदार हेमराज (सं. 14919247एच अब जेसी-421914एल),
01 मार्च 2011

हवलदार जगमोहन सिंह (सं. 14919928एल अब जेसी-421915एन),
01 मार्च 2011

हवलदार राजेंद्र सिंह (सं. 14920067एम अब जेसी-421916डब्ल्यू),
01 मार्च 2011

हवलदार राज कुमार (सं. 14917142ए अब जेसी-421820एन),
06 नवम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
काल्पनिक ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार नरेंद्रा सिंह राठौर (सं. 14917257एन अब
जेसी-421821डब्ल्यू), 27 अक्टूबर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
काल्पनिक ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार कांता मानेरकर (सं. 14917579एन अब जेसी-421822वाई),
27 अक्टूबर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
काल्पनिक ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार सुमेन राय (सं. 14917469वाई अब जेसी-421823एफ),
01 नवम्बर 2010

हवलदार बच्चा प्रसाद सिंह (सं. 14917484एन अब
जेसी-421824के), 10 जनवरी 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार अरविंद कुमार साहू (सं. 14917581एल अब
जेसी-421825एम), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार मानस पटनायक (सं. 14917584वाई अब जेसी-421826पी),
09 दिसम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार बिनय कुमार (सं. 14917587एम अब जेसी-421827एक्स),
01 दिसम्बर 2010

हवलदार मुकेश कुमार (सं. 14917736पी अब जेसी-421828ए),
01 दिसम्बर 2010

हवलदार अश्वनी कुमार (सं. 14917926एफ अब जेसी-421829एच),
28 दिसम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार रतन जाना (सं. 14917935एच अब जेसी-421830एक्स),
01 दिसम्बर 2010

हवलदार रामबीर सिंह (सं. 14919631के अब जेसी-421831ए),
28 जनवरी 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार पूरन कुमार सिंह (सं. 14919676के अब जेसी-421832एच),
01 दिसम्बर 2010

हवलदार धरमजीत तिवारी (सं. 14917590एम अब
जेसी-421833एल), 01 जनवरी 2011

हवलदार ए थोप्पु (सं. 14917621एफ अब जेसी-421834एन),
06 फरवरी 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार टी सत्या राव (सं. 14917634वाई अब जेसी-421835डब्ल्यू),
01 जनवरी 2011

हवलदार जितेंद्र कुमार सिंह (सं. 14919885एफ अब
जेसी-421836वाई), 01 जनवरी 2011

हवलदार खिव सिंह (सं. 2988577एच अब जेसी-421837एफ),
01 फरवरी 2011

- हवलदार श्री कुमार पी (सं. 14916245एम अब जेसी-421838के),
03 फरवरी-2011 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)
- हवलदार मोहन डोंगरे (सं. 14916328एक्स अब जेसी-421839एम),
03 फरवरी 2011 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)
- हवलदार दिवाकर (सं. 14916069ए अब जेसी-421840एफ),
01 फरवरी 2011
- हवलदार रामजीत कुशवाह (सं. 14917220एम अब जेसी-421841के),
05 फरवरी 2011 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)
- हवलदार नरेंद्र कुमार राय (सं. 14915955एक्स अब जेसी-421842एम), 01 फरवरी 2011
- हवलदार एम डी अनजोब अली (सं. 14920191एन अब जेसी-421843पी), 03 फरवरी 2011 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)
- हवलदार भुवा प्रसाद गुरुंग (सं. 14918714एच अब जेसी-421844एक्स), 01 फरवरी 2011
- हवलदार वरीन्द्र कुमार (सं. 14917110एक्स अब जेसी-421845ए),
01 फरवरी 2011
- हवलदार काले जोसेफ (सं. 14917229एफ अब जेसी-421846एच),
01 फरवरी 2011
- हवलदार बृन्दा बना भोई (सं. 14917336एच अब जेसी-421847एल),
01 फरवरी 2011
- हवलदार गुंडा अशोक (सं. 14917395पी अब जेसी-421848एन),
01 फरवरी 2011
- हवलदार गुणाशेखरन जी (सं. 2484050एन अब जेसी-421888पी),
14 मार्च 2011 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना काल्पनिक ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)
- हवलदार मुरलीधर प्रधान (सं. 14918888एच अब जेसी-421889एक्स), 02 फरवरी 2011 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना काल्पनिक ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)
- हवलदार समर गराई (सं. 14914492एफ अब जेसी-421890एम),
01 फरवरी 2011
- हवलदार चंद मोहन पाल (सं. 14917377एम अब जेसी-421891पी),
01 फरवरी 2011
- हवलदार रसमला क्रिष्णा मूर्ती (सं. 14915882डब्ल्यू अब जेसी-421892एक्स), 01 फरवरी 2011
- हवलदार अखाडे रामचंद्र विठ्ठल (सं. 14917547एल अब जेसी-421893ए), 01 फरवरी 2011
- हवलदार सुजीत सिंघा (सं. 14917610पी अब जेसी-421894एच),
01 फरवरी 2011
- हवलदार आनंद कुमार चौहान (सं. 14916997डब्ल्यू अब जेसी-421895एल), 01 फरवरी 2011
- हवलदार कल्याण मोय सरकार (सं. 14918889एल अब जेसी-421896एन), 02 फरवरी 2011 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)
- हवलदार सुब्रत कुमार नायक (सं. 14918934एम अब जेसी-421897डब्ल्यू), 02 फरवरी 2011 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)
- नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में
- हवलदार (लिपिक) प्रदीप दास (सं. 14916651एम अब जेसी-421898वाई), 01 मार्च 2011
- हवलदार (लिपिक) राजेन्द्र प्रसाद कुशवाहा (सं. 14916705एच अब जेसी-421899एफ), 01 मार्च 2011
- नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में
- हवलदार (एस के टी) सूर्या पाल यादव (सं. 14918119वाई अब जेसी-421900एल), 01 मार्च 2011
- हवलदार (एस के टी) यादव विजय बहादुर भवानीफेर (सं. 14918215एन अब जेसी-421901एन), 01 मार्च 2011
- नायब सूबेदार के रैंक में
- हवलदार आर सुब्रमणियन (सं. 14917348एक्स अब जेसी-421849डब्ल्यू), 26 फरवरी 2011 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना काल्पनिक ज्येष्ठता 07 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)
- हवलदार इंदरजीत सिंह (सं. 14917517एन अब जेसी-421850एल),
20 जनवरी 2011 *
- *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना काल्पनिक ज्येष्ठता 07 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार गुरदीप सिंह (सं. 14917462पी अब जेसी-421851एन),
20 जनवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 07 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार अश्वनी कुमार (सं. 14917695डब्ल्यू अब
जेसी-421852डब्ल्यू), 26 फरवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
काल्पनिक ज्येष्ठता 18 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार महेन्द्र कुमार स्वामी (सं. 14917714डब्ल्यू अब
जेसी-421853वाई), 05 फरवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार अरविंद कुमार (सं. 14917658एच अब जेसी-421854एफ),
02 फरवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार राजू कुमार सिंह (सं. 14917473एफ अब जेसी-421855के),
20 जनवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार आर एस एम होन्नु स्वामी (सं. 14917482एच अब
जेसी-421856एम), 20 जनवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार अरविंद कुमार वर्मा (सं. 14917216के अब जेसी-421857पी),
16 फरवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार रिशी पाल (सं. 14917633डब्ल्यू अब जेसी-421858एक्स),
11 फरवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार राम बिलक्शना यादव (सं. 14918169के अब
जेसी-421859ए), 31 जनवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार लक्ष्मी नारायण पाल (सं. 14917218पी अब
जेसी-421860पी), 25 जनवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 09 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार बेगपाल (सं. 14920122एक्स अब जेसी-421861एक्स),
01 मार्च 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 15 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार बोया वेंकटेश्वरलु (सं. 14919258पी अब जेसी-421862ए),
25 जनवरी 2011

हवलदार निशित समंता (सं. 14917294एफ अब जेसी-421863एच),
04 फरवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार सथीसन एस (सं. 14917381पी अब जेसी-421864एल),
06 फरवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार पटेलिया कुरा भाई धुला भाई (सं. 14918195एल अब
जेसी-421865एन), 01 फरवरी 2011

हवलदार संतोष सिंह (सं. 14919991ए अब जेसी-421866डब्ल्यू),
01 फरवरी 2011

हवलदार सुंदर सिंह (सं. 14920004के अब जेसी-421867वाई),
01 फरवरी 2011

हवलदार राज कुमार (सं. 14920008ए अब जेसी-421868एफ),
14 फरवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार कुमार सिंह चौहान (सं. 2989637वाई अब जेसी-421869के),
01 मार्च 2011

हवलदार करुणानिधी ए (सं. 14916356के अब जेसी-421870वाई),
03 मार्च 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

हवलदार दिनेश कुमार सिंह (सं. 14914440एल अब जेसी-421871एफ),
07 मार्च 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

हवलदार लेख राज (सं. 14914591के अब जेसी-421872के),
07 मार्च 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

हवलदार रमेश कुमार भोलयान (सं. 14915977डब्ल्यू अब
जेसी-421873एम), 01 मार्च 2011

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 14915353के अब जेसी-421874पी),
07 मार्च 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

हवलदार अनिल कुमार (सं. 14916746एम अब जेसी-421875एक्स),
07 मार्च 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

हवलदार सुरेश कुमार अहिरवार (सं. 14917903ए अब
जेसी-421876ए), 01 मार्च 2011

हवलदार लांडा शंकरा राव (सं. 14917686पी अब जेसी-421877एच),
02 मार्च 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 14917717के अब जेसी-421878एल),
02 मार्च 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

हवलदार मनोज कुमार सिंह (सं. 14916998वाई अब
जेसी-421879एन), 07 मार्च 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2011 से दी जाती है)

हवलदार फागुन शर्मा (सं. 14920248एक्स अब जेसी-421880एच),
01 मार्च 2011

हवलदार दीपक थापा (सं. 14918722एफ अब जेसी-421881एल),
01 मार्च 2011

हवलदार एस मुरुगेशा पेरुमल (सं. 14918738एम अब
जेसी-421882एन), 01 मार्च 2011

हवलदार मोहन चंद (सं. 14918818के अब जेसी-421883डब्ल्यू),
01 मार्च 2011

हवलदार राकेश सिंह (सं. 14919518पी अब जेसी-421884वाई),
01 मार्च 2011

हवलदार अलकेश कुमार (सं. 14917565एन अब जेसी-421885एफ),
01 मार्च 2011

हवलदार गोबर्धन सिंह (सं. 14919521पी अब जेसी-421886के),
01 मार्च 2011

हवलदार चंदर भान (सं. 14917909एफ अब जेसी-421887एम),
01 मार्च 2011

जे राय चौधरी
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एम जी ओ) ई एम ई कार्मिक

सं. 291, दिनांक 31 मई 2011--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं :--

सूबेदार एसकेटी के रैंक में

विरेन्द्र सिंह (जेसी-762814एन), 23 सितम्बर 2010/01 सितम्बर
2010

शिवजी राम (जेसी-762874एच), 01 अक्टूबर 2010

सूबेदार अर्मायेन्ट टेक (एफडी) के रैंक में

सुरेश कुमार (जेसी-763734एच), 24 सितम्बर 2010/01 अगस्त
2010 *

सूबेदार ऑटो टेक ए व्हीकल के रैंक में

कामेश्वर गुप्ता (जेसी-762092एम), 13 अक्टूबर 2010/22 जून
2010 *

मोहन लाल (जेसी-761673एच), 11 अक्टूबर 2010/22 जून 2010 *

विजय कुमार मिश्रा (जेसी-762213एच), 11 अक्टूबर 2010/22 जून
2010 *

सूबेदार (डी डब्ल्यू) के रैंक में

नंद किशोर गीरी (जेसी-762159ए), 01 अक्टूबर 2010/01 जून
2010 *

इन्दर पाल सिंह (जेसी-762076पी), 01 अक्टूबर 2010/01 जून
2010 *

सूबेदार टेक स्माल आर्म्स के रैंक में

अवदेश कुमार शुक्ला (जेसी-760576एन), 01 अक्टूबर 2010

राम कुमार (जेसी-760364एच), 05 अक्टूबर 2010/01 अप्रैल 2010 *

सूबेदार मास्टर टेक ए ई एफ (आई एण्ड पी) के रैंक में

भाव सिंह (जेसी-760776के), 01 अक्टूबर 2010

सूबेदार ऑपरेटर और ड्राइवर (रिकवरी) के रैंक में

चन्द्रा शेखरन पिल्लै (जेसी-756417वाई), 01 अक्टूबर 2010

सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में

दीनेश विलांगिल (जेसी-760500एन), 01 अक्टूबर 2010

सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

श्री संतराम नगयच (जेसी-759524एल), 01 अक्टूबर 2010

सरोजा सामल (जेसी-759869एम), 04 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर
2010 *

क्रिष्णा नंद वर्मा (जेसी-759539एन), 06 अक्टूबर 2010/01 नवम्बर
2010 *

सूबेदार टेक जी सी ई के रैंक में

मांगे राम (जेसी-762239एक्स), 07 अक्टूबर 2010/22 जून 2010 *

सूबेदार ऑटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

रामजी प्रसाद (जेसी-763173वाई), 13 अक्टूबर 2010/22 जून 2010 *

दिलिप कुमार विस्वास (जेसी-763821डब्ल्यू), 15 अक्टूबर 2010/
01 सितम्बर 2010 *

सुनील कुमार पी पी (जेसी-763720एच), 18 अक्टूबर 2010/
01 अगस्त 2010 *

सूबेदार टेक रडार के रैंक में

नमो नरायण (जेसी-761675एच), 18 अक्टूबर 2010/22 जून 2010 *

*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

पी ए रोवार्ट जोन (सं. 14618987एम अब जेसी-765098वाई),
17 नवम्बर 2010/01 जुलाई 2010

सत्येंद्रा सिंह (सं. 14619688ए अब जेसी-765353ए), 01 सितम्बर
2010

रामा शंकर प्रसाद (सं. 14601211एच अब जेसी-765370ए),
01 अक्टूबर 2010/01 मार्च 2010

सुरेन्द्र कुमार (सं. 14619693एल अब जेसी-765374डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2010

अशरफ एम पी (सं. 14619521डब्ल्यू अब जेसी-765380के),
01 अक्टूबर 2010

सरोश पी पी (सं. 14619519वाई अब जेसी-765378एम), 01 अक्टूबर
2010

हवलदार से नायब सूबेदार टेक एवीएन (एएफ) के रैंक में

माली सम्भाजि एकनाथ (सं. 14635014पी अब जेसी-765211एच),
21 अक्टूबर 2010/01 सितम्बर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ए व्हीकल के रैंक में

नरेश पाल सिंह (सं. 14615499वाई अब जेसी-765216एफ),
02 अक्टूबर 2010/01 सितम्बर 2010

राम नरेश (सं. 14618501डब्ल्यू अब जेसी-765340एच), 28 अक्टूबर
2010/01 सितम्बर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में

आर मानीकंदन (सं. 14622286एन अब जेसी-765326डब्ल्यू),
04 अक्टूबर 2010/01 सितम्बर 2010

भास्करन जी (सं. 14622628डब्ल्यू अब जेसी-765361वाई),
08 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010

सुभाश चंद्र लाम्बा (सं. 14625335डब्ल्यू अब जेसी-765471एन),
01 नवम्बर 2010

भोगाडे शमकंत एम (सं. 14624774पी अब जेसी-765468एन),
01 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010

प्रकाश कुमार मेहता (सं. 14624214एच अब जेसी-765466एच),
04 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010

वीथेकार राजेन्द्रा पंडारि नाथ (सं. 14624773एम अब
जेसी-765467एल), 29 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010

देयस चंद चहार (सं. 14625329एच अब जेसी-765470एल),
03 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010

शेख वजीर इब्राहिम (सं. 14583306एक्स अब जेसी-765489के),
01 नवम्बर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक रडार के रैंक में

आनन्द सिंह (सं. 14628567ए अब जेसी-765366एक्स), 01 अक्टूबर
2010

पी अय्यप्पन (सं. 14626724एच अब जेसी-765483एच),
02 नवम्बर 2010/03 अक्टूबर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मशीनिस्ट के रैंक में

कोसनाम लोकस्वरा राव (सं. 14583498ए अब जेसी-765413ए),
28 नवम्बर 2010/1 अक्टूबर 2010

एस विजय कुमार (सं. 14584207एफ अब जेसी-765451ए),
01 नवम्बर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार आर्टिजन मेटॉलर्जी के रैंक में

धरम दास (सं. 14591201एच अब जेसी-765417ए), 07 अक्टूबर
2010/01 अक्टूबर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में

वेंकटेशुलु एन (सं. 14577607एल अब जेसी-765449एच),
01 नवम्बर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार टेक एवीएन (ईई) के रैंक में

नीरज कुमार तिवारी (सं. 14637605एम अब जेसी-765476एम),
03 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010

विक्रम सिंह चाहर (सं. 14637622एम अब जेसी-765490वाई),
01 नवम्बर 2010

पंडियराज डी (सं. 14637181एफ अब जेसी-765475के), 30 अक्टूबर
2010/01 अक्टूबर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (आई एण्ड पी) के रैंक
में

हेमंत कुमार देरनी (सं. 14637494ए अब जेसी-765481एक्स),
09 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक इलेक्ट के रैंक में

नरेन्द्र सिंह (सं. 14619063एल अब जेसी-765485एन), 07 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010

आनंद सिंह (सं. 14594708पी अब जेसी-765484एल), 01 नवम्बर 2010/03 अक्टूबर 2010

रेवन सिद्धा (सं. 14619178वाई अब जेसी-765465ए), 06 नवम्बर 2010/01 सितम्बर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक अष्टो इलेक्ट के रैंक में

लंडा बैरागी रेड्डी (सं. 14619189एल अब जेसी-765486डब्ल्यू), 02 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010

*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

हवलदार से नायब सूबेदार टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

गुरदास राम (सं. 14575244एन अब जेसी 765523वाई), 26 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010 *

अतुल चंद्रा सकिया (सं. 14574908के अब जेसी-765522डब्ल्यू), 26 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010 *

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो टेक बी वेहीकल के रैंक में

विजय कुमार पंकज (सं. 14574352एल अब जेसी-765456वाई), 26 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक नेट वर्किंग के रैंक में

राजीव कुमार राजपूठ (सं. 14608928एम अब जेसी-765547एच), 19 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक एस ए के रैंक में

महेन्द्रा सिंह (सं. 14602254के अब जेसी-765900के), 01 मार्च 2011

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में

सुभाश चंद्र (सं. 14582634वाई अब जेसी-765839एल), 17 फरवरी 2010/01 फरवरी 2010 *

कमल देव प्रसाद सिंह (सं. 14584250एच अब जेसी-765843एन), 01 मार्च 2011

हवलदार से नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

शत्रुहन प्रसाद शुक्ला (सं. 14588781एक्स अब जेसी-765932एम), 01 मार्च 2011

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में

लाल जीत चौहान (सं. 14616247वाई अब जेसी-765812एन), 01 मार्च 2011

तपा कुमार बरिक् (सं. 14617067एच अब जेसी-765813डब्ल्यू), 01 मार्च 2011

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

कृष्ण कुमार (सं. 14619235पी अब जेसी-765178डब्ल्यू), 05 मार्च 2010/01 अगस्त 2010 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ईलेक्ट के रैंक में

मिशर नागाभ्युरु (सं. 14627374डब्ल्यू अब जेसी-765821पी), 19 फरवरी 2011/01 जनवरी 2011

*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

सूबेदार (डी डब्ल्यू) के रैंक में

मुर्गाप्पा महारुदुरा कोशित (जेसी-762485एच), 01 नवम्बर 2010

पी दुराई सामी (जेसी-762481एम), 01 नवम्बर 2010

भूशणा सिंह (जेसी-762479पी), 01 अक्टूबर 2010

सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

आमिन अहमद (जेसी-763128एम), 01 नवम्बर 2010

अशोक कुमार सिंह (जेसी-763130के), 01 नवम्बर 2010

सोहन सिंह (जेसी-763129पी), 01 नवम्बर 2010

गोपाल चन्द्रा मोहन्ती (जेसी-763137एन), 01 दिसम्बर 2010

जोगिन्दर पाल (जेसी-763298डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010

संजीत सिंघा राय (जेसी-762872एक्स), 29 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010 *

सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में

राम दिया (जेसी-759675के), 01 नवम्बर 2010

जीवन सिंह (जेसी-759664एक्स), 01 नवम्बर 2010

दया शंकर (जेसी-759652एच), 01 नवम्बर 2010

विनोद कुमार झा (जेसी-759663पी), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

दीपक प्रसाद सिंह (जेसी-760545एन), 01 नवम्बर 2010

बीजया कुमार प्रधान (जेसी-760666पी), 01 नवम्बर 2010

राज सिंह (जेसी-760589एल), 01 नवम्बर 2010

महम्मद सफि खान (जेसी-760766ए), 01 दिसम्बर 2010

सूबेदार टेक स्माल आर्म्स के रैंक में

कृष्ण मुरारी (जेसी-760580डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010

शिववेन्द्रा पाठक (जेसी-760578वाई), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार ऑटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

थंदति मुनी रामया (जेसी-763867वाई), 01 दिसम्बर 2010

सूबेदार मास्टर टेक अप्टो इलेक्ट के रैंक में

हरी प्रकाश शर्मा (जेसी-759604पी), 01 दिसम्बर 2010

*(पिछली तारीख से वरीतया दी जाती है)

एन के कश्मीरा

अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 292, दिनांक 31 मई 2011---राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

क्वचित कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार विरेन्द्र सिंह (सं. 1099221एच अब जेसी-244713पी),
01 जनवरी 2011

दफादार श्रवण सिंह (सं. 1089591पी अब जेसी-244722डब्ल्यू),
15 नवम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार मुकेश (सं. 1089254ए अब जेसी-244734एल),
31 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार नरेश कुमार (सं. 1089976एम अब जेसी-244735एन),
01 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार गोपाल सिंह (सं. 1099027एन अब जेसी-244736डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार इन्द्रालाल (सं. 15461056एच अब जेसी-244737वाई),
01 दिसम्बर 2010

दफादार सुदिर कुमार (सं. 15461213के अब जेसी-244754वाई),
05 जनवरी 2011*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार ओम प्रकाश (सं. 1098989एल अब जेसी-244758पी),
01 दिसम्बर 2010

दफादार हरिश चन्द्रा प्रसाद गुप्ता (सं. 1098657एफ अब जेसी-
244759एक्स), 01 दिसम्बर 2010

दफादार दादासो पाटिल (सं. 1099541एक्स अब जेसी-244761पी),
01 जनवरी 2011

दफादार रमेश कुमार ठाकुर (सं. 15464710वाई अब जेसी-
244762एक्स), 01 जनवरी 2011

दफादार मुरकुटे बालासाहेब सूर्यभान (सं. 1099081एफ अब जेसी-
244768वाई), 16 दिसम्बर 2010

दफादार अजय सिंह (सं. 1099084पी अब जेसी-244769एफ),
01 जनवरी 2011

दफादार आरबिंद कुमार (सं. 1099379एल अब जेसी-
244770डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011

दफादार सत्तायु उगादि राव (सं. 15461428एच अब
जेसी-244772एफ), 23 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार बलस्टर सिंह तोमर (सं. 15461906एफ अब जेसी-
244798डब्ल्यू), 08 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार हरिश चन्द्रा सिंह (सं. 15461729एम अब जेसी-
244800एच), 11 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार संजय कुमार सिंह (सं. 15463933के अब जेसी-
244802एन), 23 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार बलजीत सिंह (सं. 15462037के अब जेसी-244808पी),
04 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार बलवंत कुमार (सं. 15464671एल अब जेसी-
244809एक्स), 04 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार जसपाल सिंह (सं. 15463199एफ अब जेसी-244810एम),
04 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार परमजीत सिंह (सं. 15464713एम अब जेसी-244812एक्स),
04 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार सुभाष चन्द्र (सं. 15461786एन अब जेसी-244813ए),
04 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार सिया राम यादवा (सं. 1099764पी अब जेसी-
244817डब्ल्यू), 21 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार जोगिन्दर सिंह (सं. 1099284एल अब जेसी-244830ए),
28 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार मुकेश कुमार (सं. 15461017के अब जेसी-244831एच),
28 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार गुलाब सिंह चम्पावत (सं. 1099187एन अब
जेसी-244833एन), 28 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार राज कुमार (सं. 1098882डब्ल्यू अब जेसी-244837के),
01 जनवरी 2011

दफादार दया राम (सं. 15462827वाई अब जेसी-244838एम),
05 जनवरी 2011*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

दफादार लखन सिंह (सं. 1089794वाई अब जेसी-244839पी),
01 जनवरी 2011

दफादार रनविजय कुमार (सं. 15461833ए अब जेसी-244846एल),
11 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार राजू हुंडे (सं. 15461892एम अब जेसी-244847एन),
11 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार निरंजन धारा (सं. 15461829एक्स अब जेसी-244845एच),
11 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार कैलाश चंद जाट (सं. 1089931एम अब जेसी-244854के),
23 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार मुरली धर मंकास (सं. 1099462एच अब जेसी-
244856पी), 03 जनवरी 2011*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार गिलाके अनील नामदेव (सं. 15462354एल अब जेसी-
244857एक्स), 28 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार रविन्द्र कुमार (सं. 15461322डब्ल्यू अब जेसी-244862एच),
27 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार सुरेन्द्रा प्रसाद कुशवाहा (सं. 15463605डब्ल्यू अब जेसी-
244864एन), 27 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार विलास पाटिल (सं. 15463507डब्ल्यू अब जेसी-
244865डब्ल्यू), 27 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार भुपिन्द्र सिंह (सं. 15461857के अब जेसी-244883वाई),
16 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 10 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार जरनैल सिंह (सं. 1089885एच अब जेसी-244890पी),
21 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार देब कुमार बिश्वास (सं. 15461442पी अब जेसी-
244891एक्स), 17 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार जय करन सिंह तोमर (सं. 1089202के अब जेसी-
244893एच), 16 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 11 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार कुलवंत सिंह (सं. 15463398पी अब जेसी-244894एल),
23 दिसम्बर 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार मधुकर जी (सं. 1099405एफ अब जेसी-244900एन),
01 जनवरी 2011 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार शम्भु नाथ तिवारी (सं. 1089168पी अब जेसी-244904के),
03 जनवरी 2011 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार सत्यवान सिंह (सं. 15462950एक्स अब जेसी-244908ए),
03 जनवरी 2011 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 27 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार राय सिंह गुजर (सं. 15463264डब्ल्यू अब जेसी-
244909एच), 03 जनवरी 2011 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 27 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार रमेन बारो (सं. 1089785एक्स अब जेसी-244916वाई),
04 जनवरी 2011 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार प्रसिद्ध नारायण यादव (सं. 15461364एच अब जेसी-
244918के), 05 जनवरी 2011 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार थोटा भास्करा राव (सं. 15461431एच अब जेसी-
244917एफ), 05 जनवरी 2011 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार रामा चन्द्रा दास (सं. 15461843के अब जेसी-
244920एफ), 05 जनवरी 2011 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार संजय कुमार पांडे (सं. 15461351एल अब जेसी-
244923पी), 01 जनवरी 2011 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 24 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार भरत सिंह (सं. 15461409एक्स अब जेसी-244924एक्स),
01 जनवरी 2011

जे राय चौधरी
अवर सचिव

सेना शाखा

(जनरल स्टाफ शाखा)

सं. 293, दिनांक 31 मई 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित की नियुक्ति/
पदोन्नति करते हैं :--

व्यक्ति का नाम, पदोन्नति तथा पदोन्नति की तारीख

रशेल कोचू कुंजूर, वरिष्ठ निजी सचिव, 01 फरवरी 2010

सुभाष चन्द्र, वरिष्ठ निजी सचिव, 01 अक्टूबर 2010

पूरन चन्द, वरिष्ठ निजी सचिव, 03 अगस्त 2010

एम डी भौसले, निजी सचिव, 05 अगस्त 2010

सिधिया क्रिस्टी, निजी सचिव, 13 अगस्त 2010

उषा रानी सूद, निजी सचिव, 01 अक्टूबर 2010

आर के साहनी, निजी सचिव, 05 जुलाई 2010

आर के झा
अवर सचिव

सं. 294, दिनांक 01 जून 2011--

शुद्धि-पत्र

भारत के राजपत्र में दिनांक 08 अप्रैल 2006 को शीर्षक "नियमित
सेना स्थायी कमीशन" "सजा" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के
राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

विरुद्ध : आईसी-46003एम ले कर्नल ओपी फार्सवान, इंजीनियर्स

के बदले : (ए) पदोन्नति के लिए पांच वर्ष की सेवा का समपहरण
किया जाए

(बी) पेंशन हेतु पांच वर्ष की सेवा का समपहरण और

(सी) कड़ी भर्त्सना की जाए

पढ़ा जाए : --रिक्त--

भारत के राजपत्र पार्ट-I सेक्शन IV दिनांक 16 दिसम्बर 2006, को
शीर्षक "नियमित सेना स्थायी कमीशन" एवं उप शीर्षक "मेजर से ले
कर्नल" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित
संशोधन किया जाता है :--

के बदले : 22 अप्रैल 2006

पढ़ा जाए : 16 दिसम्बर 2004

भारत के राजपत्र पार्ट-I सेक्शन IV दिनांक 28 जून 2008, 19 जुलाई
2008, 02 मई 2009, 28 सितम्बर 2009 और 27 नवम्बर 2010 को

शीर्षक “नियमित सेना स्थायी कमीशन” एवं उप शीर्षक “मेजर से ले कर्नल” के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के बदले : 10 दिसम्बर 2007

पढ़ा जाए : 11 दिसम्बर 2007

प्रभात रॉस
उप निदेशक एमएस-8सी

सं. 295, दिनांक 01 जून 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

भारत के राजपत्र सं. 713 दिनांक 26 नवम्बर 2010 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 01 दिनांक 01 जनवरी 2011 शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

सूबेदार मेजर (धर्मशिक्षक) के रैंक में

के स्थान पर :

सूबेदार (धर्मशिक्षक) अशोक कुमार (जेसी- 14320082डब्ल्यू),
01 जुलाई 2010

पढ़ा जाए:

सूबेदार (धर्मशिक्षक) अशोक कुमार (जेसी- 143082डब्ल्यू),
01 जुलाई 2010

के स्थान पर :

सूबेदार (धर्मशिक्षक) मुरली मनोहर लखेरा (जेसी- 14320080एल),
02 जुलाई 2010 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

पढ़ा जाए:

सूबेदार (धर्मशिक्षक) मुरली मनोहर लखेरा (जेसी- 143080एल),
02 अगस्त 2010 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

के स्थान पर :

सूबेदार (धर्मशिक्षक) दयाधर भरतोला (जेसी- 14320083वाई),
02 अगस्त 2010 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

पढ़ा जाए:

सूबेदार (धर्मशिक्षक) दयाधर भरतोला (जेसी- 143083वाई),
02 अगस्त 2010 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

के स्थान पर :

सूबेदार (धर्मशिक्षक) गजानंद शर्मा (जेसी- 14320086एम),
01 अगस्त 2010

पढ़ा जाए:

सूबेदार (धर्मशिक्षक) गजानंद शर्मा (जेसी- 143086एम), 01 अगस्त 2010

के स्थान पर :

सूबेदार (धर्मशिक्षक) कमलापती (जेसी- 14320084ए),
02 अगस्त 2010 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

पढ़ा जाए:

सूबेदार (धर्मशिक्षक) कमलापती (जेसी- 143084एफ),
02 अगस्त 2010 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

भारत के राजपत्र सं. 713 दिनांक 26 नवम्बर 2010 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 01 दिनांक 01 जनवरी 2011 शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक इन्फैन्ट्री और मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

थल सेना विभाग

सं. 22 में दिनांक 29 मई 2010--भारत के राजपत्र सं. 275 में दिनांक 06 मई 2010 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी नायब रिसालदार विशेष सूची क्वचित कोर पृष्ठ संख्या 860 के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के बदले :--

दफादार (गनर/आपरेटर) गुन्जल सुनील खंडू (सं. 1087618एच अब जेसी-243797एफ), 09 नवम्बर 2009 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

पढ़ा जाए :--

दफादार (गनर/आपरेटर) गुन्जल सुनील खंडू (सं. 1087618एच अब जेसी-243797एफ), 09 अक्टूबर 2009 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

सं. 41 में दिनांक 09 अक्टूबर 2010--भारत के राजपत्र सं. 550 में दिनांक 01 सितम्बर 2010 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी नायब रिसालदार विशेष सूची क्वचित कोर पृष्ठ संख्या 1854 और 1955 के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के बदले :--

दफादार सुरेश कुमार (सं. 1087765एल अब जेसी-244017एक्स), 17 मार्च 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

दफादार संजीवन सिंह (सं. 15461488एक्स अब जेसी-244190एफ), 17 मार्च 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

पढ़ा जाए :--

दफादार सुरेश कुमार (सं. 1087765एल अब जेसी-244017एक्स), 17 मार्च 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार संजीवन सिंह (सं. 15461488एक्स अब जेसी-244017एक्स), 17 मार्च 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

सं. 17 में दिनांक 07 मई 2010--भारत के राजपत्र संख्या 206 में दिनांक 06 अप्रैल 2010 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी नायब रिसालदार विशेष सूची क्वचित कोर पृष्ठ संख्या 674 के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के बदले :--

दफादार सामासो कमर अंसारी (सं. 15461527एल अब जेसी-243779वाई), 15 सितम्बर 2009*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 2009 से दी जाती है)

पढ़ा जाए :--

दफादार सामासो कमर अंसारी (सं. 15461527एल अब जेसी-243779वाई), 15 सितम्बर 2009*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

सं. 31 में दिनांक 31 जुलाई 2010--भारत के राजपत्र संख्या 399 में दिनांक 25 जून 2010 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी नायब रिसालदार

विशेष सूची क्वचित कोर पृष्ठ संख्या 1286 के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के बदले :--

दफादार आजाद सिंह (सं. 1099092एन अब जेसी-244031के), 26 जनवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

पढ़ा जाए :--

दफादार आजाद सिंह (सं. 1099092एन अब जेसी-244031के), 26 जनवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जनवरी 2010 से दी जाती है)

सं. 14 में दिनांक 03 अप्रैल 2010--भारत के राजपत्र संख्या 164 में दिनांक 15 मार्च 2010 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी नायब रिसालदार विशेष सूची क्वचित कोर पृष्ठ संख्या 540 और 542 के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के बदले :--

दफादार (गनर/आपरेटर) दिनेश कुमार (सं. 1089408एफ अब जेसी-243659ए), 21 जुलाई 2009*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार (आपरेटर/ड्राइवर) राजकिशोर बड़ठा (सं. 1099268एन अब जेसी-243488वाई), 17 फरवरी 2009*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

पढ़ा जाए :--

दफादार (गनर/आपरेटर) दिनेश कुमार (सं. 1089408एफ अब जेसी-243659ए), 21 जुलाई 2009*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

दफादार (आपरेटर/ड्राइवर) राजकिशोर बड़ठा (सं. 1099268एन अब जेसी-243488वाई), 17 फरवरी 2009*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

जे राय चौधरी
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 2nd July 2011

ARMY BRANCH

No. 285, dated 26th May 2011—The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 17 Sep 2010, on relinquishing their Short Service Commission wef 17 Sep 2010 :—

IC No. allotted, Name, SS No. and Arms/Services

(IC-66537Y) Vijayendra Singh Yadav, (SS-41512F), Mech Inf

(IC-66540Y) Pankaj Kumar Rawat, (SS-41515P), ASC

(IC-66541F) KK Sarish, (SS-41516X), AAD

(IC-66542K) Rohit Jakhar, (SS-41517A), AC

(IC-66544P) Krishna Kant Bajpai, (SS-41523N), Inf

(IC-66545X) Rahul Kasana, (SS-41524W), Int

(IC-66546A) J Gaurav Sharma, (SS-41525Y), Arty

(IC-66548L) Trivedi Nisheeth Jayantilal, (SS-41527K), Arty

(IC-66549N) Madhusudan B S, (SS-41529P), Arty

(IC-66551L) Dharmaveer Singh Chauhan, (SS-41531M), Arty

(IC-66552N) Ravinder Singh Rathore, (SS-41533X), EME

(IC-66553W) Rajpal, (SS-41535H), Arty

(IC-66554Y) Deshpande Aniruddha Balkrishna, (SS-41536L), Arty

(IC-66556K) Arun Kumar MS, (SS-41538W), Arty

(IC-66557M) Jagmohan Mehra, (SS-41539Y), Inf

(IC-66558P) Saurabh Sameer, (SS-41540N), Inf

(IC-66559X) Anand Singh, (SS-41542Y), Inf

(IC-66560M) Mohit Dubey, (SS-41544K), AC

(IC-66561P) Girish Thakur, (SS-41545M), Arty

(IC-66562X) Kislaya Singh, (SS-41546P), Arty

(IC-66563A) Ambarish Mahanta, (SS-41547X), Inf

(IC-66564H) Vaibhav Vadera, (SS-41548A), Inf

(IC-66566N) Kapil Sharma, (SS-41550X), EME

(IC-66567W) Pawan Kumar Bohra, (SS-41551A), Inf

(IC-66568Y) Mahipal Singh, (SS-41552H), AOC

(IC-66569F) Lukshya Pratap Singh Shekhawat, (SS-41553L), Mech Inf

(IC-66570W) Udayan Pratap Singh, (SS-41554N), Inf

(IC-66572F) Ranjeet Singh Panwar, (SS-41556Y), Inf

(IC-66573K) Sudeep Singh, (SS-41557F), Mech Inf

(IC-66574M) Rajneesh Pandey, (SS-41558K), Int

(IC-66576X) Hemant Mehta, (SS-41561K), Inf

(IC-66577A) Tarandeep Singh Gill, (SS-41563P), Inf

(IC-66579L) Rajinder Jit Singh, (SS-41566H), Arty

(IC-66581H) Vinod Viswanath, (SS-41570L), Inf

(IC-66582L) Jagdish Singh Samant, (SS-41572W), AC

(IC-66584W) Nitesh Singh, (SS-41575K), Inf

(IC-66585Y) Rowen Leslie Brass, (SS-41576M), Inf

(IC-66586F) Akash Sharma, (SS-41577P), Arty

(IC-66587K) Avdhesh Choudhary, (SS-41578X), Inf

(IC-66589P) Ajeet Kumar Agarwal, (SS-41582A), Inf

(IC-66590K) Anand Bahuguna, (SS-41583H), AC

(IC-66591M) Nikhil Zope, (SS-41584L), Arty

(IC-66593X) S Thenkhomang Baite, (SS-41588F), Inf

(IC-66594A) Saurabh Gupta, (SS-41590Y), Inf

(IC-66595H) Arnab Banerjee, (SS-41591F), Arty

(IC-66596L) Manjeet Singh, (SS-41592K), Inf

(IC-66597N) Sandeep Kausal, (SS-41593M), Inf

(IC-66598W) Devender Singh, (SS-41594P), Arty

(IC-66600H) Patel Gopinandan Dinesh Kumar, (SS-41596A), Int

(IC-66602N) Vivek Kumar Sharma, (SS-41599N), AC

(IC-66603W) Abhinav Manembeth, (SS-41600X), Arty

(IC-66605F) Surendra S, (SS-41602H), Inf

(IC-66606K) Manish Dhyani, (SS-41604N), Inf

(IC-66608P) Sandeep Kumar Sharma (SS-41606Y), EME

(IC-66609X) Shaiwal Shrivastava, (SS-41607F), Inf

(IC-66610M) Krishan Bhandari, (SS-41608K), Int

(IC-66611P) Rajat Bali, (SS-41609M), Arty

(IC-66612X) Akshay Lamba, (SS-41611K), AC

(IC-66613A) Piyush Kumar Chhetri, (SS-41615A), Arty

(IC-66614H) Nukhil Dhawan, (SS-41618N), Inf

(IC-66615L) Kuldeep Singh Chandi, (SS-41619W), Inf

(IC-66616N) Vikas Kadian, (SS-41621N), Int
 (IC-66617W) Dhantaj Singh, (SS-41622W), AC
 (IC-66618Y) Anil Kumar Chahar, (SS-41623Y), Int
 (IC-66619F) Himmat Singh, (SS-41624F), Inf
 (IC-66620W) Rajat Kumar Birman, (SS-41626M), Inf
 (IC-66622F) KN Thimmayya, (SS-41629A), Arty
 (IC-66623K) Sachin Bhatnagar, (SS-41630P), Arty
 (IC-66624M) Amit Yadav, (SS-41631X), Arty
 (IC-66625P) Suraj Bhan Singh, (SS-41632A), Arty
 (IC-66626X) Nirvan Bajpai, (SS-41633H), AC
 (IC-66628H) Sourabh Bali, (SS-41637Y), Inf
 (IC-66631H) Raj Shobi Shammi, (SS-41642K), Inf
 (IC-66632L) Vineet Shekhar Prem, (SS-41643M), Inf
 (IC-66635Y) Gagan Deep Singh Rathore, (SS-41650H), Inf
 (IC-66637K) Niranjan Singh Dewal, (SS-41652N), Inf
 (IC-66638M) Khalkar Swapnil Shivaji, (SS-41653W), Engrs
 (IC-66639P) Jimmy James, (SS-41654Y), Inf
 (IC-66640K) Raman Adhikari, (SS-41655F), Inf
 (IC-66641M) Shashi Kumar KS (SS-41656K), AAD
 (IC-66642P) Sakoon, (SS-41659X), AC
 (IC-66643X) Blesson K Daniel, (SS-41660M), AAD
 (IC-66644A) Ajay Kumar Bhardwaj, (SS-41661P), Arty
 (IC-66645H) Adhav Sachin Jagganath, (SS-41662X), EME
 (IC-66646L) Arjun Kapur, (SS-41664H), AC
 (IC-66647N) Sunil Kumar, (SS-41666N), Arty
 (IC-66648W) Rajendra Negi, (SS-41667W), Inf
 (IC-66649Y) Soubam Chalamba, (SS-41668Y), Inf
 (IC-66650N) Pradeep Kumar Yadav, (SS-41669F), AAD
 (IC-66652Y) Praveen R, (SS-41672F), AAD
 (IC-66653F) Vikas Guleria, (SS-41673K), Inf
 (IC-66654K) Hemender Vasudeva, (SS-41675P), Inf
 (IC-66655M) Roshan Krishnappa, (SS-41676X), Inf
 (IC-66656P) Shashank Shekhar, (SS-41677A), Inf
 (IC-66659H) Naveen Chauhan, (SS-41682L), Inf
 (IC-66660X) Amit Kumar Shukla, (SS-41683N), Arty
 (IC-66662H) Suresh Kumar Dey, (SS-41685Y), Arty
 (IC-66663L) Chandrasenan BR (SS-41689P), Inf

(IC-66666Y) Shiv Narayan Shukla, (SS-41693X), Engrs
 (IC-66667F) Kulkarni Omkar Kishor, (SS-41694A), Arty
 (IC-66668K) Rudrashish Pandey, (SS-41695H), Arty
 (IC-66669M) Ranadive Sandeep Nandkumar, (SS-41696L), Arty
 (IC-66670F) Abhilash KM (SS-41698W), Inf
 (IC-66672M) Avaneesh P Singh, (SS-41700H), Arty
 (IC-66674X) Sudeep Singh, (SS-41704Y), Arty
 (IC-66676H) Ritchie Ashwin S (SS-41706K), Inf
 (IC-66678N) Rahul Dev, (SS-41710M), Inf
 (IC-66680L) Rahul Baghel, (SS-41712X), EME
 (IC-66681N) Pradeep Singh Gohil, (SS-41713A), AC
 (IC-66682W) Ranjeet Kumar Jha, (SS-41714H), Mech, Inf
 (IC-66683Y) Shankar Pati Banerjee, (SS-41716N), Arty
 (IC-66684F) Deepak Suyal, (SS-41717W), Inf

The date of seniority in respect of above mentioned officers will be as follows :—

The date for increments of pay - 17 Sep 2005

The date for promotion - 17 Apr 2006

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The undermentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 03 Mar 2011, on relinquishing their Short Service Commission wef 03 Mar 2011 :—

IC No. allotted, Name, SS No. and Arms/Services

(IC-65287W) Devendra Kumar Singh, (SS-39038A), Inf

(IC-65289F) Shaji K, (SS-39053P), AOC

(IC-65292F) Mayank Dubey, (SS-39075N), Inf

The date of seniority in respect of above mentioned officers will be as follows :—

The date for increments of pay - 03 Mar 2001

The date for promotion - 03 Nov 2002

(After depressing 12 months seniority with respect to the date of seniority assigned to the officer of their batch who were granted permanent commission on completion of 5 years of service)

The inter-se-seniority vis-a-vis to the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission in 10th years alongwith the officer of their batch granted PC in the 8th year, will however remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission of SSC-71(NT) Course.

VS RANADE
Col
Col MS-7

ARMY HEADQUARTERS

E-IN-C'S BRANCH

No. 286, dated 26th May 2011—The competent authority appoints the following Assistants of AFHQ Civil Service as officiating Section Officer (Group B, Gazetted) (Grade Pay Rs. 4,800/- in Pay Band-II) under the Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 for the period mentioned against their names or till such time the individual retires or till regular incumbents become available, whichever is earlier :—

Anita Kathuria, 01 Apr 2011/30 Jun 2011
Kalyan Ghosh, 01 Apr 2011/30 Jun 2011
R C Pandey, 01 Apr 2011/30 Jun 2011
Kanta, 01 Apr 2011/30 Jun 2011
Aquil Qais, 01 Jan 2011/30 Jun 2011
Jaggu Ram, 01 Jan 2011/30 Jun 2011
Ashok Kumar Rathore, 01 Jan 2011/30 Jun 2011
Suresh Chand Badola, 01 Jan 2011/30 Jun 2011
Mahavir Singh Gautam, 01 Jan 2011/30 Jun 2011
Savitri Behl, 01 Jan 2011/30 Jun 2011
Ramesh Baboo, 01 Jan 2011/30 Jun 2011
SK Chaterjee, 01 Jan 2011/30 Jun 2011
Rajesh Kumar Singh, 01 Jan 2011/30 Jun 2011
BB Wahi, 01 Jan 2011/30 Jun 2011
Sunita Sood, 01 Jan 2011/30 Jun 2011
TP Singh, 01 Jan 2011/30 Jun 2011
AK Chandi, 01 Jan 2011/31 Jan 2011

These appointments are made purely as stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

A K LAROIYA
Dy Chief Admn. Officer (A)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 287, dated 27th May 2011—The President is pleased to make the following appointments :—

Jagdish Prasad Sahu, to be temporary Scientist 'F' on probation for one year in ASL, Hyderabad with effect from 13 Sep 2010 (F/N) in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- (Pay Band-4) + Rs. 8,900/- Grade Pay.

Vijaya Vital R, to be temporary Scientist 'F' on probation for one year in RCI, Hyderabad with effect from 24 May 2010 (F/N) in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- (Pay Band-4) + Rs. 8,900/- Grade Pay.

NARSINGH SAHU
Jt Director (Pers)

ARMY BRANCH

No. 288, dated 27th May 2011—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION (ARMY MEDICAL CORPS)

Lt Col to be Col by selection (& equivalent)

C D S Katoch (MR-06212F), 30 Jan 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 06 April 2009

K P Reddy (MR-05537H), 19 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 06 Jun 2009

M S Sandhu (MR-05563K), 28 May 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 15 Jul 2009

Alok Sharma (MR-05197L), 22 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 19 Oct 2009

A V Akulwar (MR-05765L), 01 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Nov 2009

R Routji (MR-05425H), 30 Jan 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Nov 2009

A S Dhillon (MR-06294P), 30 Jan 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Nov 2009

K Prabhakaran (MR-05541L), 03 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 07 Nov 2009

N Ramakrishnan (MR-05632P), 29 Jan 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 2010

Jaydeb Biswas (MR-06459H), 19 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 2010

R K Chaudhuri (MR-05987A), 26 Apr 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 05 Jan 2010

D K Sreevastava (MR-05715A), 30 Jan 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 05 Jan 2010

A K Sood (MR-05795H), 30 Jan 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 07 Jan 2010

(Mrs) S Kashyap (MR-05718N), 12 Mar 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 09 Jan 2010

A K Tyagi (MR-05720L), 03 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 18 Jan 2010

S Mehrotra (MR-05723Y), 30 Jan 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 28 Jan 2010

S K Mukherjee (MR-05725K), 10 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 28 Jan 2010

R K Singh (MR-05726M), 30 Jan 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 28 Jan 2010

S Singh (MR-05729A), 01 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 28 Jan 2010

A Bahadur (MR-05730P), 29 Jan 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 28 Jan 2010

C G Murlidharan (MR-05731X), 12 Mar 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 28 Jan 2010

A Galagali (MR-05734L), 30 Jan 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 28 Jan 2010

Saibal Adhya (MR-05735N), 28 Mar 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 28 Jan 2010

R Maggon (MR-05737Y), 05 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 28 Jan 2010

D Arora (MR-05741F), 29 Jan 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 28 Jan 2010

P P Rao (MR-05742K), 30 Jan 2010

R Prakash (MR-05746A), 12 Jun 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 30 Jan 2010

Y K Yadav (MR-05759X), 16 Mar 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 30 Jan 2010

(Mrs) S Sreekala (MR-06470F), 30 Jan 2010

Pradeep Kumar (MR-06468K), 26 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Feb 2010

(Mrs) S Soni (MR-06492A), 05 Apr 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Feb 2010

P Mittal (MR-05826X), 17 Aug 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Feb 2010

A Khullar (MR-05832L), 07 May 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Feb 2010

Alok Sethi (MR-05838M), 25 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Feb 2010

S Patole (MR-05840K), 26 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Feb 2010

Indronil Ghosh (MR-05843X), 01 Feb 2010

B P Singh (MR-06473P), 02 Apr 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Feb 2010

Avtar Narayan (MR-05831H), 01 Feb 2010

R Gnanasekar (MR-05980W), 13 Mar 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Feb 2010

S Bose (MR-06141L), 01 Mar 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Feb 2010

V Venkatesan (MR-06143W), 01 Feb 2010

N Kannan (MR-05903F), 25 Mar 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 04 Feb 2010

S Sen (MR-05906P), 15 Mar 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 05 Feb 2010

V Marwaha (MR-05910X), 01 Apr 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Mar 2010

S K Singh (MR-05912H), 01 Apr 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 05 Mar 2010

D Vivekanand (MR-05913L), 01 Apr 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 05 Mar 2010

A K Srivastava (MR-05916Y), 01 Apr 2010

R K Gupta (MR-05921K), 14 May 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Apr 2010

V Mathur (MR-05926H), 17 May 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 May 2010

S K Ghai (MR-05924X), 05 Jul 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jun 2010

S Ramakrishna (MR-05929W), 01 Jun 2010

R M Joshi (MR-05930L), 04 Aug 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 15 Jun 2010

Dharmesh (MR-05931N), 01 Jul 2010

T Madhusudan (MR-05935K), 13 Jul 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 05 Jul 2010

V K Baranwal (MR-05939A), 12 Jul 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 07 Jul 2010

R P S Gambhir (MR-05905M), 10 Jul 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 08 Jul 2010

V P Mathur (MR-06711W), 07 Aug 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 08 Jul 2010

J B Singh (MR-05993N), 12 Jul 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 08 Jul 2010

S Khanna (MR-05994W), 01 Aug 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 08 Jul 2010

(Mrs) Aruna Menon (MR-06502Y), 06 Aug 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 19 Jul 2010

S Chatterjee (MR-05999P), 06 Aug 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 04 Aug 2010

Kunal Chatterjee (MR-06000W), 01 Sep 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 25 Aug 2010

R K Chengappa (MR-06017K), 01 Oct 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 25 Aug 2010

A Devgan (MR-06015Y), 15 Sep 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Sep 2010

(Mrs) V Negi (MR-07384H), 14 Sep 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Sep 2010

J Debnath (MR-06018M), 15 Sep 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Sep 2010

Maj to be Lt Col

Rama Shankar Rajbhar (MR-07584Y), AMC, 13 Sep 2006

Shantanu Banerjee (MR-06937F), AMC, 10 Jul 2010

Sanjib Hazarika (MS-13918Y) (MR-08201N), AMC, 10 Dec 2010

Roshni Jagdeep Abichandani (MS-13781X) (MR-08101H), AMC, 04 Jan 2011

Vikas Chawla (MS-13941M) (MR-07990Y), AMC, 10 Jan 2011

Sawant Milind Bhimrao (MS-14043A) (MR-07991F), AMC, 22 Jan 2011

H Ravi Ramamurty (MR-07246F), AMC, 05 Feb 2011

NK Jain (MR-07245Y), AMC, 05 Feb 2011

Manish Manrai (MR-07244W), AMC, 05 Feb 2011

SC Shaw (MR-07243N), AMC, 05 Feb 2011

Karunesh Chand (MR-07238H), AMC, 05 Feb 2011

Anamika Sinha (MR-07266P), AMC, 05 Feb 2011

Hashim PI (MR-07257N), AMC, 05 Feb 2011

AK Baranwal (MR-07255H), AMC, 05 Feb 2011

Bhavna Hooda (MR-07254A), AMC, 05 Feb 2011

Kavita Manrai (MR-07248M), AMC, 05 Feb 2011

Anshu Prasad (MR-07272H), AMC, 05 Feb 2011

Rishi Dhillan (MR-07286H), AMC, 05 Feb 2011

Vasundhara Singh (MR-07268A), AMC, 05 Feb 2011

Onkar Singh (MR-07247K), AMC, 05 Feb 2011

Neeraj Garg (MR-07265M), AMC, 05 Feb 2011

Preeti Tripathi (MR-08321M), AMC, 11 Dec 2010

Ahijit Banerjee (MR-07298X), AMC, 05 Feb 2011

Naveen Kashyap (MR-07291N), AMC, 05 Feb 2011

Maneesh Jha (MR-07278K), AMC, 05 Feb 2011

A Jayachandra (MR-07277F), AMC, 05 Feb 2011

Rajiv Kumar (MR-07075A), AMC, 20 Jan 2010

Anil Kumar Gupta (MR-08098N), AMC, 11 Oct 2010

Ashwani Kumar Sharma (MR-08746L), AMC, 11 Oct 2010

Gurbinder Singh (MR-08817F), AMC, 19 Dec 2010

Naveen Tripathi (MR-08680A), AMC, 06 Jan 2011

Jyoti Gupta (MR-07979A), AMC, 11 Jan 2011

Surg Lt to be Surg Lt Cdr

Ashvini Jakhar (75920W) (MR-08342H), AMC, 20 Feb 2011

Shazia Khan (MS-15464P) (MR-09056N), AMC, 22 Jan 2011

Roma Rai (MR-08337X), AMC, 20 Feb 2011

YASH PANDE

Brig

Dy DG AFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 289, dated 30th May 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY EDUCATIONAL CORPS

To be Sub Maj

Sub Virendra Singh (JC-802720F), 01 Jan 2011

Sub Urba Datt Bhatt (JC-802518N), 01 Feb 2011

To be Nb Sub

Hav Sanjeev Kumar (No. 9511146K now JC-804454M), 01 Nov 2010

Hav Chandra Shekar B (No. 9511041A now JC-804456X), 20 Jan 2011@

Hav Subhash Chand (No. 9511045W now JC-804457A), 22 Dec 2010@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Bahadur Singh Shekhawat (No. 9511155L now JC-804462L), 01 Jan 2011

Hav Vijaya Kumar S (No. 9511159F now JC-804464W), 14 Jan 2011#

#(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Mrityunjoy Das (No. 9510167N now JC-804465Y), 01 Feb 2011

Hav P Vaidyanathan (No. 9511173N now JC-804468M), 01 Feb 2011

Hav G Ravi Kumar (No. 9511178M now JC-804469P), 01 Feb 2011

Hav Shiv Bhajan Soni (No. 9511179P now JC-804470K), 01 Feb 2011

Hav Kollu Venugopal (No. 9511180K now JC-804471M),
01 Feb 2011

Hav K Siba Prasad Das (No. 9511181M now JC-804472P),
01 Feb 2011

Hav Muraleedhran P (No. 9511187N now JC-804475H),
01 Feb 2011

Hav Hira Lal (No. 9511188W now JC-804476L), 01 Feb
2011

Hav Anil Kumar KC (No. 9511192Y now JC-804477N),
01 Feb 2011

PREM PARKASH
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 290, dated 30th May 2011—The President is pleased
to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

BRIGADE OF THE GUARDS

To be Sub Maj

Sub Satpal Singh (JC-402811X), 01 Jun 2010

Sub Ganesh Chand (JC-402812A), 02 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on
pay and allces wef 01 Jun 2010)

Sub Shyam Babu (JC-403259P), 01 Sep 2010

Sub Bhagwana Ram Bishnoi (JC-403285W), 03 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on
pay and allces wef 01 May 2010)

Sub Kulbir Singh (JC-403676F), 01 Jul 2010

To be Sub

Nb Sub Kanwar Pal (JC-403625N), 01 Jul 2010

Nb Sub Jagvir Singh (JC-403629K), 01 Sep 2010

Nb Sub Rakesh Kumar Singh (JC-403633M), 01 Oct 2010

Nb Sub Raj Kumar Mandal (JC-403757F), 13 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on
pay and allces wef 01 Apr 2010)

Nb Sub Taran Taran (JC-403770L), 01 Jun 2010

Nb Sub Desh Pal Singh (JC-403771N), 01 Oct 2010

Nb Sub Dilip Kr Borah (JC-403798L), 01 Jun 2010

Nb Sub Sukhbir Singh (JC-403799N), 29 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 01 Jun 2010)

Nb Sub Sanjay Kaushik (JC-403846A), 01 May 2010

Nb Sub Jai Pal Singh (JC-403857M), 01 May 2010

Nb Sub Satya Prakash (JC-403870W), 01 May 2010

Nb Sub Ram Niwas (JC-403882L), 20 Feb 2010

Nb Sub Krishan Chand (JC-403899Y), 01 May 2010

Nb Sub Jamshed Ali (JC-403904Y), 01 May 2010

Nb Sub Bajrang Singh (JC-403907M), 04 Sep 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 01 Aug 2010)

Nb Sub Ganesha Ram (JC-403908P), 01 Sep 2010

Nb Sub Videsh Kumar (JC-403922F), 29 Sep 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 01 Jun 2010)

Nb Sub Awadhesh Kumar (JC-403925P), 27 Apr 2010

Nb Sub Bas Deo (JC-403927A), 01 Mar 2010

Nb Sub Naresh Singh (JC-403930A), 01 Sep 2010

Nb Sub Adwin Lakra (JC-403943X), 15 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 01 May 2010)

Nb Sub Rajendra Kumar Yadav (JC-403949Y), 01 Sep 2010

Nb Sub Dinesh Chandra (JC-403955M), 01 May 2010

Nb Sub Gurcharan Singh (JC-403959H), 02 Oct 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 01 Jul 2010)

Nb Sub Sant Lal (JC-403970F), 20 Sep 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 01 Jul 2010)

Nb Sub Anil Kumar (JC-403974X), 01 Sep 2010

Nb Sub Ramannnd Tiwari (JC-403984F), 18 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 01 Apr 2010)

Nb Sub Kuldeep Singh (JC-403990P), 20 Aug 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 10 Jul 2010)

Nb Sub Shinde Sowana Manik (JC-404013H), 01 Apr 2010

Nb Sub Shivji (JC-404016W), 01 Oct 2010

Nb Sub T Padmanaban (JC-404019K), 10 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 01 Jun 2010)

Nb Sub Ram Sewak Yadav (JC-404041P), 01 Jun 2010

Nb Sub Pratap Kumar Singh (JC-404053K), 01 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
and allces wef 01 Apr 2010)

Nb Sub Swarn Singh (JC-404056X), 01 Mar 2010

Nb Sub Kishori Prasad Gop (JC-404073X), 26 Aug 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2010)

Nb Sub Mahendra Singh (JC-404097F), 01 May 2010

Nb Sub Kanwar Singh (JC-404098K), 02 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 11 May 2010)

Nb Sub Tara Sharma (JC-404132Y), 28 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 07 Mar 2010)

Nb Sub Gopi Chand (JC-404138A), 12 Sep 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2010)

Nb Sub Kunwar Pal Singh (JC-404139H), 01 Aug 2010

Nb Sub Sri Santosh Kumar Sharma (JC-404177Y), 22 Sep 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2010)

Nb Sub Bhola Kharia (JC-404199X), 12 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2010)

Nb Sub Tulsi Singh (JC-404202M), 10 Sep 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2010)

Nb Sub Surinder Kumar (JC-404204X), 02 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jun 2010)

Nb Sub Lal Chand (JC-404209W), 24 Aug 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2010)

Nb Sub Yashi Lal Yadav (JC-404210L), 28 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2010)

Nb Sub Kadhore Singh Rathaur (JC-404221X), 01 Jul 2010

Nb Sub Majar Singh (JC-404231F), 04 Oct 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2010)

Nb Sub Rohitas Yadav (JC-404235X), 01 Aug 2010

Nb Sub Viresh Kumar Sharma (JC-404256N), 02 Oct 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allces wef 01 Oct 2010)

To be Sub (Clk SD)

Nb Sub (Clk) Kunji Lal (JC-404039X), 01 May 2010

Nb Sub (Clk) Phool Kumar (JC-404040M), 01 Jul 2010

To be Nb Sub

Hav Ramjee Bharti (No. 13688236M now JC-404660H), 01 Oct 2010

Hav Dinesh Kumar Pandey (No. 13688420X now JC-404612H), 18 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 May 2010)

Hav Rajendra Prasad (No. 13688488Y now JC-404639A), 20 Aug 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 10 Jul 2010)

Hav Lal Bihari Yadav (No. 13688863Y now JC-404630L), 30 Aug 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 02 May 2010)

Hav Kushal Pal Singh Tomar (No. 13688880Y now JC-404600N), 01 May 2010

Hav Bhiya Ram (No. 13689018A now JC-404632W), 20 Sep 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2010)

Hav Suraj Bhan Sharma (No. 13689199W now JC-404606P), 01 Jun 2010

Hav Har Lal Singh (No. 13689281L now JC-404663W), 02 Oct 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Oct 2010)

Hav Lokesh Kumar (No. 13689292X now JC-404624 X), 20 Sep 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 30 Mar 2010)

Hav Suresh Chand (No. 13689389H now JC-404640P), 21 Sep 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2010)

Hav Prem Singh (No. 13689430N now JC-404641X), 02 Oct 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2010)

Hav Bhanwra Ram Vishnoi (No. 13689491L now JC-404647Y), 06 Oct 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 29 Aug 2010)

Hav Nandan Singh Parihar (No. 13689502M now JC-404620F), 05 Aug 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Aug 2010)

Hav Rohtas Kumar (No. 13689535X now JC-404653M), 04 Oct 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2010)

Hav Vikram Singh (No. 13689570A now JC-404652K), 01 Sep 2010

Hav Krishan Kumar (No. 13689672W now JC-404588X), 01 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 07 Mar 2010)

Hav Tej Singh (No. 13689798W now JC-404618K), 01 Jul 2010

Hav Shashi Pal (No. 13689799Y now JC-404598F), 01 May 2010

Hav Sri Dinesh Singh Chauhan (No. 13689912H now JC-404642A), 01 Aug 2010

Hav Subhash Chandra (No. 13689958L now JC-404607X), 03 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Jun 2010)

Hav Trilok Singh (No. 13690092N now JC-404665F), 01 Oct 2010

Hav Chandra Sekharan Chettiar T (No. 13690120P now JC-404625A), 30 Aug 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 30 Apr 2010)

Hav Santosh Kr Boro (No. 13690204H now JC-404613L), 02 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 22 May 2010)

Hav Sukhbir Singh (No. 13690315A now JC-404654P), 10 Sep 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2010)

Hav P Pandi Raj (No. 13690578Y now JC-404614N), 02 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Jun 2010)

Hav Asha Ram (No. 13690612N now JC-404619M), 21 Jul 2010

Hav Pankaj Kumar Yadava (No. 13690625L now JC-404615W), 02 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Jun 2010)

Hav Mahesh Chandra (No. 13691039P now JC-404622M), 06 Aug 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 23 May 2010)

Hav Birendra Kumar Mishra (No. 13691077L now JC-404611A), 27 Apr 2010

Hav John Francis (No. 13691272H now JC-404579W), 08 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 12 Jan 2010)

Hav Salinder Kumar (No. 13691412K now JC-404564N), 28 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Jan 2010)

Hav Shishu Pal Singh (No. 13691451H now JC-404601W), 01 May 2010

Hav Dhanwar Ram (No. 13691459P now JC-404603F), 01 May 2010

Hav Rajendra Singh (No. 13691522Y now JC-404604K), 01 May 2010

Hav Dharmander Singh Parihar (No. 13691609A now JC-404693H), 01 Apr 2010

Hav Santosh Singh Chaturvedi (No. 13691769A now JC-404602Y), 01 May 2010

Hav Rajinder Singh (No. 13691799X now JC-404655X), 06 Sep 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Sep 2010)

Hav Raj Pal (No. 13691806H now JC-404608A), 01 Jun 2010

Hav Khem Pal Singh (No. 13691890N now JC-404609H), 01 Jun 2010

Hav Shivananda (No. 13692025F now JC-404616Y), 29 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Jun 2010)

Hav Meka Ram Bishnoi (No. 13692083L now JC-404605M), 01 May 2010

Hav Satandra Kumar Singh (No. 13692183W now JC-404547N), 18 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 03 Oct 2009)

Hav Sri Inayat Khan (No. 13692211X now JC-404610X), 17 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Jun 2010)

Hav Raj Nath Maurya (No. 13692353P now JC-404555M), 25 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 26 Nov 2009)

Hav Ashok Kumar Singh (No. 13692428F now JC-404582W), 19 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 26 Feb 2010)

Hav Ajay Kumar Pandey (No. 13692944W now JC-404587P), 05 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 04 Mar 2010)

Hav Salave Arjun Mahadev (No. 13693233H now JC-404635K), 13 Sep 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Jul 2010)

Hav Bikram Singh (No. 15612239Y now JC-404573P), 12 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 10 Jan 2010)

Hav Rajesh Kumar (No. 15619286Y now JC-404595N), 16 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 08 Nov 2009)

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Brajraj Singh Tomar (No. 13690674N now JC-404596W), 01 May 2010

Hav (Clk) Braj Kishor Ojha (No. 15359808N now JC-404597Y), 01 May 2010

Hav (Clk) Bishnu Narayan Satapathy (No. 15361753N now JC-404617F), 01 Jul 2010

Hav (Clk) Shah Navin Chandra Shanker Lal (No. 15362409P now JC-404631N), 01 Jul 2010

Hav (Clk) Ravi Dev Singh (No. 13689795H now JC-404648F), 01 Sep 2010

Hav (Clk) Shatrughna Roy (No. 2684097H now JC-404658L), 01 Oct 2010

RECORDS THE MIR

To be Sub

Nb Sub (OW AFV) Sanjay Kumar Jha (JC-421253W), 01 Feb 2011

Nb Sub (OP Radio) Shiv Kumar (JC-420717W), 02 Mar 2011*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Dvr Ft Veh) Ramesh Chandra, SC (JC-420797Y), 01 Mar 2011

Nb Sub (Dvr AFV) Sarjit Singh (JC-420803F), 01 Mar 2011

Nb Sub (Dvr AFV) Tara Bahadur Pun (JC-420874H), 01 Mar 2011

Nb Sub (Gunner) Ram Paul (JC-420901F), 01 Mar 2011

Nb Sub (Dvr Ft Veh) Jagat Singh Panwar (JC-420937A), 01 Mar 2011

Nb Sub (Dvr Ft Veh) Gandeep Singh (JC-420975W), 01 Mar 2011

Nb Sub (Dvr Ft Veh) Harinder Singh (JC-420994F), 01 Mar 2011

Nb Sub (Dvr Ft Veh) Nobat Singh (JC-421069L), 01 Mar 2011

Nb Sub (GNRPT) Tej Pal (JC-421073N), 01 Mar 2011

Nb Sub (DVR AFV) Surjeet Kumar (JC-421125Y), 01 Mar 2011

Nb Sub (DVRFTVEH) Tej Pal (JC-421126F), 01 Mar 2011

Nb Sub (Gnrpt) Ranjit Singh (JC-421214X), 01 Mar 2011

Nb Sub (Gunner) Debaraja Maharana (JC-421367F), 01 Mar 2011

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Suresh Kumar (JC-421058Y), 18 Dec 2010*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Lallu Prasad (JC-420986H), 27 Jan 2011*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Balwant Singh (JC-420555W), 11 Jan 2011*

*(Granted seniority in the rank of subs Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Anand Singh (JC-421326X), 21 Jan 2011*

*(Granted seniority in the rank of subs Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Prabhu Singh (JC-420605W), 01 Feb 2011

Nb Sub Mohan Singh Rawat (JC-420721Y), 01 Feb 2011

Nb Sub Ramesh Chander (JC-420759H), 01 Feb 2011

Nb Sub Roshan Lal Sharma (JC-420774X), 01 Feb 2011

Nb Sub Sawai Singh (JC-420839A), 01 Feb 2011

Nb Sub Mannan Perumal P (JC-420915F), 01 Feb 2011

Nb Sub Ravi Dutta Sharma (JC-421012W), 01 Feb 2011

Nb Sub Nawal Kishore Singh (JC-421039N), 01 Feb 2011

Nb Sub Beer Val (JC-421078M), 15 Feb 2011*

*(Granted seniority in the rank of subs Sub wef 01 Feb 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sasi Kumar G (JC-421188F), 03 Feb 2011*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Feb 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kishan Singh Gaina (JC-421252N), 01 Feb 2011

Nb Sub Dheeraj Kumar (JC-421304Y), 01 Feb 2011

Nb Sub Kamor Singh (JC-421318Y), 01 Feb 2011

Nb Sub Sahab Singh (JC-421324M), 01 Feb 2011

Nb Sub M Murugan (JC-421366Y), 01 Feb 2011

Nb Sub Suders B (JC-421179A), 03 Feb 2011

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Feb 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Randive Rajendra Sadasiv (JC-420821K), 01 Mar 2011

Nb Sub Ram Pratap Gurjar (JC-420872X), 01 Mar 2011

To be Sub

Nb Sub Clk (SD) Girdhari Lal (JC-420751), 01 Mar 2011

Nb Sub Clk (SD) Raj Bir (JC-420752Y), 01 Mar 2011

Nb Sub (SKT) Kailash Chandra Lakhera (JC-421198L), 01 Mar 2011

Nb Sub (SKT) Ravindran Nair KS (JC-421301L), 01 Mar 2011

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Virendra Singh (JC-420963F), 01 Jan 2011

Nb Sub Varinder Singh (JC-420973L), 12 Jan 2011*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Indra Bhushan Pandey (JC-421117A), 12 Mar 2011*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Feb 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Avtar Singh (JC-420655F), 01 Mar 2011

Nb Sub Birendra Singh (JC-420911L), 02 Mar 2011*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Raju Thapa (JC-420966P), 04 Mar 2011*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Pratap Singh (JC-420967X), 01 Mar 2011

Nb Sub Basurothu Srinivasa Rao (JC-420996M), 01 Mar 2011

Nb Sub Sri Vinod Singh (JC-421017P), 01 Mar 2011

Nb Sub Rohtas Singh (JC-421025N), 01 Mar 2011

Nb Sub Shankar Badigar (JC-421032K), 01 Mar 2011

Nb Sub Kanhiya Lal Gurjar (JC-421063K), 01 Mar 2011

Nb Sub Raju Kumar (JC-421119L), 01 Mar 2011

Nb Sub Konitham Venkat Rao (JC-421180P), 02 Mar 2011*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bhanwar Singh (JC-421181X), 02 Mar 2011*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub A Govinda Samy (JC-421275P), 03 Mar 2011*

*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub

Hav P Jayaseelan (No. 14916216X now JC-421902W), 01 Mar 2011

Hav S Sundaresan (No. 14916220A now JC-421903Y), 01 Mar 2011

Hav Parshotam Singh (No. 14916334L now JC-421904F), 01 Mar 2011

Hav Sanjeev Kumar (No. 14916335N now JC-421905K), 16 Mar 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Ravindra Kumar Sharma (No. 14916596F now JC-421906M), 16 Mar 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Lal Singh (No. 14916965N now JC-421907P), 01 Mar 2011

Hav Rama Kant Singh (No. 14917107X now JC-421908X), 01 Mar 2011

Hav Gnanapragasam (No. 14918173M now JC-421909A), 01 Mar 2011

Hav Shiv Pal Jat (No. 14917743L now JC-421910P), 01 Mar 2011

Hav Ajay Kumar Dhaka (No. 14917745W now JC-421911X), 01 Mar 2011

Hav Siva Kumar D (No. 14919300H now JC-421912A), 01 Mar 2011

Hav Devappa Sarapure (No. 14919359H now JC-421913H), 01 Mar 2011

Hav Hemraj (No. 14919247H now JC-421914L), 01 Mar 2011

- Hav Jagmohan Singh (No. 14919928L now JC-421915N),
01 Mar 2011
- Hav Rajendra Singh (No. 14920067M now JC-421916W),
01 Mar 2011
- Hav Raj Kumar (No. 14917142A now JC-421820N),
06 Nov 2010*
- *(Granted Notional seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)
- Hav Narendera Singh Rathore (No. 14917257N now JC-
421821W), 27 Oct 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2010 without effect on pay and allowances)
- Hav Kanta Manerakar (No. 14917579N now JC-421822Y),
27 Oct 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2010 without effect on pay and allowances)
- Hav Saumen Ray (No. 14917469Y now JC-421823F),
01 Nov 2010
- Hav Bachcha Prasad Singh (No. 14917484N now JC-
421824K), 10 Jan 2011*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2010 without effect on pay and allowances)
- Hav Arvind Kumar Sahu (No. 14917581L now JC-
421825M), 01 Dec 2010
- Hav Manas Pattanayak (No. 14917584Y now JC-421826P),
09 Dec 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec
2010 without effect on pay and allowances)
- Hav Binai Kumar (No. 14917587M now JC-421827X),
01 Dec 2010
- Hav Mukesh Kumar (No. 14917736P now JC-421828A),
01 Dec 2010
- Hav Ashwani Kumar (No. 14917926F now JC-421829H),
28 Dec 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec
2010 without effect on pay and allowances)
- Hav Ratan Jana (No. 14917935H now JC-421830X),
01 Dec 2010
- Hav Rambir Singh (No. 14919631K now JC-421831A),
28 Jan 2011*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec
2010 without effect on pay and allowances)
- Hav Puran Kumar Singh (No. 14919676K now JC-
421832H), 01 Dec 2010
- Hav Dharamjeet Tiwari (No. 14917590M now JC-421833L),
01 Jan 2011
- Hav A Thoppu (No. 14917621F now JC-421834N), 06 Feb
2011*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011
without effect on pay and allowances)
- Hav T Satya Rao (No. 14917634Y now JC-421835W),
01 Jan 2011
- Hav Jitendra Kumar Singh (No. 14919885F now JC-
421836Y), 01 Jan 2011
- Hav Kheenv Singh (No. 2988577H now JC-421837F),
01 Feb 2011
- Hav Sree Kumar P (No. 14916245M now JC-421838K),
03 Feb 2011*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb
2011 without effect on pay and allowances)
- Hav Mohan Dongare (No. 14916328X now JC-421839M),
03 Feb 2011*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb
2011 without effect on pay and allowances)
- Hav Diwakar (No. 14916069A now JC-421840F), 01 Feb
2011
- Hav Ramjeet Kushwaha (No. 14917220M now JC-
421841K), 05 Feb 2011*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb
2011 without effect on pay and allowances)
- Hav Narendra Kumar Roy (No. 14915955X now JC-
421842M), 01 Feb 2011
- Hav Md Anzob Ali (No. 14920191N now JC-421843P),
03 Feb 2011*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb
2011 without effect on pay and allowances)
- Hav Bhuwa Prasad Gurung (No. 14918714H now JC-
421844X), 01 Feb 2011
- Hav Varinder Kumar (No. 14917110X now JC-421845A),
01 Feb 2011
- Hav Kale Joseph (No. 14917229F now JC-421846H),
01 Feb 2011
- Hav Brunda Bana Bhoi (No. 14917336H now JC-421847L),
01 Feb 2011
- Hav Gunda Ashok (No. 14917395P now JC-421848N),
01 Feb 2011
- Hav Gunasekaran G (No. 2484050N now JC-421888P),
14 Mar 2011*
- *(Granted Notional seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)
- Hav Muralidhar Pradhan (No. 14918888H now JC-
421889X), 02 Feb 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Samar Garai (No. 14914492F now JC-421890M), 01 Feb 2011

Hav Chand Mohan Pal (No. 14917377M now JC-421891P), 01 Feb 2011

Hav Rasamala Krishna Murthy (No. 14915882W now JC-421892X), 01 Feb 2011

Hav Akhade Ramchandra Vitthal (No. 14917547L now JC-421893A), 01 Feb 2011

Hav Sujit Singha (No. 14917610P now JC-421894H), 01 Feb 2011

Hav Anand Kumar Chouhan (No. 14916997W now JC-421895L), 01 Feb 2011

Hav Kalyan Moy Sarkar (No. 14918889L now JC-421896N), 02 Feb 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Subrat Kumar Nayak (No. 14918934M now JC-421897W), 02 Feb 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2011 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk (SD) Pradip Das (No. 14916651M now JC-421898Y), 01 Mar 2011

Hav/Clk (SD) Rajendra Prasad Kushwaha (No. 14916705H now JC-421899F), 01 Mar 2011

Hav (SKT) Surya Paal Yadav (No. 14918119Y now JC-421900L), 01 Mar 2011

Hav (SKT) Yadav Vijay Bahadur Bhawanipher (No. 14918215N now JC-421901N), 01 Mar 2011

Hav R Subramanian (No. 14917348X now JC-421849W), 26 Feb 2011*

*(Granted notional seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Inderjit Singh (No. 14917517N now JC-421850L), 20 Jan 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Gurdip Singh (No. 14917462P now JC-421851N), 20 Jan 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ashwani Kumar (No. 14917695W now JC-421852W), 26 Feb 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Mahender Kumar Swami (No. 14917714W now JC-421853Y), 05 Feb 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Arvinda Kumar Singh (No. 14917658H now JC-421854F), 02 Feb 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Raju Kumar Singh (No. 14917473F now JC-421855K), 20 Jan 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav RSM Honnuru Swamy (No. 14917482H now JC-421856M), 20 Jan 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Arvind Kumar Verma (No. 14917216K now JC-421857P), 16 Feb 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Rishi Pal (No. 14917633W now JC-421858X), 11 Feb 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Bilakshna Yadav (No. 14918169K now JC-421859A), 31 Jan 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Lakshmi Narayan Pal (No. 14917218P now JC-421860P), 25 Jan 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Begpal (No. 14920122X now JC-421861X), 01 Mar 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Boya Venkateshwarlu (No. 14919258P now JC-421862A), 25 Jan 2011

Hav Nishith Samanta (No. 14917294F now JC-421863H), 04 Feb 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Satheesan S (No. 14917381P now JC-421864L), 06 Feb 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Pateliya Kura Bhai Dhula Bhai (No. 14918195L now JC-421865N), 01 Feb 2011

Hav Santosh Singh (No. 14919991A now JC-421866W), 01 Feb 2011

Hav Sunder Singh (No. 14920004K now JC-421867Y), 01 Feb 2011

Hav Raj Kumar (No. 14920008A now JC-421868F), 14 Feb 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Kumar Singh Chauhan (No. 2989637Y now JC-421869K), 01 Mar 2011

Hav Karunanithi A (No. 14916356K now JC-421870Y), 03 Mar 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Dinesh Kumar Singh (No. 14914440L now JC-421871F), 07 Mar 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Lekh Raj (No. 14914591K now JC-421872K), 07 Mar 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh Kumar Bholyan (No. 14915977W now JC-421873M), 01 Mar 2011

Hav Balwinder Singh (No. 14915353K now JC-421874P), 07 Mar 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Anil Kumar (No. 14916746M now JC-421875X), 07 Mar 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Suresh Kumar Ahirwar (No. 14917903A now JC-421876A), 01 Mar 2011

Hav Landa Sankara Rao (No. 14917686P now JC-421877H), 02 Mar 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wcf 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Rajveer Singh (No. 14917717K now JC-421878L), 02 Mar 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Manoj Kumar Singh (No. 14916998Y now JC-421879N), 07 Mar 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Fagun Sharma (No. 14920248X now JC-421880H), 01 Mar 2011

Hav Deepak Thapa (No. 14918722F now JC-421881L), 01 Mar 2011

Hav S Murugesha Perumal (No. 14918738M now JC-421882N), 01 Mar 2011

Hav Mohan Chand (No. 14918818K now JC-421883W), 01 Mar 2011

Hav Rakesh Singh (No. 14919518P now JC-421884Y), 01 Mar 2011

Hav Alkesh Kumar (No. 14917565N now JC-421885F), 01 Mar 2011

Hav Gobardhan Singh (No. 14919521P now JC-421886K), 01 Mar 2011

Hav Chander Bhan (No. 14917909F now JC-421887M), 01 Mar 2011

J ROY CHOWDHARY
Under Secy

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEER BRANCH

No. 291, dated 31st May 2011—The President is pleased to make the following Appointments/Promotions :—

To be Sub SKT

Birender Singh (JC-762814N), 23 Sep 2010/01 Sep 2010*

Sheojee Ram (JC-762874H), 01 Oct 2010

To be Sub ARMT Tech (FD)

Suresh Kumar (JC-763734H), 24 Sep 2010/01 Aug 2010*

To be Sub Auto Tech A Veh

Kameshwar Gupta (JC-762092M), 13 Oct 2010/22 Jun 2010*

Mohan Lal (JC-761673H), 11 Oct 2010/22 Jun 2010*

Vijay Kumar Misra (JC-762213H), 11 Oct 2010/22 Jun 2010*

To be Sub DW

Nand Kishore Giri (JC-762159A), 01 Oct 2010/22 Jun 2010*

Inder Pal Singh (JC-762076P), 01 Oct 2010/22 Jun 2010*

To be Tech SA

Awadesh Kumar Shukla (JC-760576N), 01 Oct 2010

Ram Kumar (JC-760364H), 05 Oct 2010/01 Apr 2010*

To be Sub Master Tech AVF (INP)

Bhav Singh (JC-760776K), 01 Oct 2010

To be Sub Opr & Dvr (Rech)

Chandra Sekharan Pillai C (JC-756417Y), 01 Oct 2010

To be Sub Clk (SD)

Dinesan Vilangil (JC-760500N), 01 Oct 2010

To be Sub Master Tech B Veh

Sri Santram Nagayach (JC-759524L), 01 Oct 2010

Saroja Samal (JC-759869M), 04 Oct 2010/01 Oct 2010*

Krishna Nand Verma (JC-759539N), 06 Oct 2010/01 Nov 2010*

To be Sub Tech GCE

Mange Ram (JC-762239X), 07 Oct 2010/22 Jun 2010*

To be Sub Auto Tech B Veh

Ramji Prasad (JC-763173Y), 13 Oct 2010/22 Jun 2010*

Dilip Kumar Biswas (JC-763821W), 15 Oct 2010/01 Sep 2010*

Sunil Kumar P P (JC-763720H), 18 Oct 2010/01 Aug 2010*

To be Sub Tech RDR

Namo Narayan (JC-761675H), 18 Oct 2010/22 Jun 2010*

*(Gtd ante dated seniority)

Hav to be Nb Sub Master Tech B Veh

Hav PA Robert Jhon (No. 14618987M now JC-765098), 17 Nov 2010/01 Jul 2010*

Hav Satyehdra Singh (No. 14619688A now JC-765353A), 01 Sep 2010

Hav Rama Shankar Prasad (No. 14601211H now JC-765370A), 01 Oct 2010/01 Mar 2010*

Hav Surender Kumar (No. 14619693L now JC-765374W), 01 Oct 2010

Hav Ashraf MP (No. 14619521W now JC-765380K), 01 Oct 2010

Hav Sarosh PP (No. 14619519Y now JC-765378M), 01 Oct 2010

Hav to be Nb Sub Avn Tech AF

Hav Mali Sambhaji Ekanath (No. 14635014P now JC-765211H), 21 Oct 2010/01 Sep 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech a Veh

Hav Naresh Pal Singh (No. 14615499Y now JC-765216F), 02 Oct 2010/01 Sep 2010*

Hav Ram Naresh (No. 14618501W now JC-765340H), 28 Oct 2010/01 Sep 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Gun

Hav R Manikandan (No. 14622286N now JC-765326W), 04 Oct 2010/01 Sep 2010*

Hav Baskaran G (No. 14622628W now JC-765361Y), 08 Oct 2010/01 Oct 2010*

Hav Subhash Chadra Lamba (No. 14625335W now JC-765471N), 01 Nov 2010

Hav Bhogade Shamkant M (No. 14624774P now JC-765468N), 01 Nov 2010/01 Oct 2010*

Hav Prakash Kumar Mehta (No. 14624214H now JC-765466H), 04 Nov 2010/01 Oct 2010*

Hav Vithekar Rajendra Pandhari Nath (No. 14624773M now JC-765467L), 29 Oct 2010/01 Oct 2010*

Hav Days Chand Chahar (No. 14625329H now JC-765470L), 03 Nov 2010/01 Oct 2010*

Hav Shaikh Vajir Ibrahim (No. 14583306X now JC-765489K), 01 Nov 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech RDR

Hav Anad Singh (No. 14628567A now JC-765366X), 01 Oct 2010

Hav P Ayyappan (No. 14626724H now JC-765483H), 02 Nov 2010/03 Oct 2010*

Hav to be Nb Sub Mach

Hav Kosanam Lokaswara Rao (No. 14583498A now JC-765413A), 28 Oct 2010/01 Oct 2010*

Hav S Vijay Kumar (No. 14584207F now JC-765451A), 01 Nov 2010

Hav to be Nb Sub Artsnmet

Hav Dharam Das (No. 14591201H now JC-765417A), 07 Oct 2010/01 Oct 2010*

Hav to be Nb Sub Welder

Hav Venkatesalu N (No. 14577607L now JC-765449H), 01 Nov 2010

Hav to be Nb Sub Avn Tech AE

Hav Neeraj Kumar Tiwari (No. 14637605M now JC-765476M), 03 Nov 2010/01 Oct 2010*

Hav Vikram Singh Chahar (No. 14637622M now JC-765490Y), 01 Nov 2010

Hav Pandiaraj D (No. 14637181F now JC-765475K), 30 Oct 2010/01 Oct 2010*

Hav to be Nb Sub AVF (I & P)

Hav Hemant Kumar Derani (No. 14637494A now JC-765481X), 09 Nov 2010/01 Oct 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Elect

Hav Narender Singh (No. 14619063L now JC-765485N),
07 Nov 2010/01 Nov 2010*

Hav Anand Singh (No. 14594708P now JC-765484L),
01 Nov 2010/03 Oct 2010*

Hav Revan Siddappa No. 14619178Y now JC-765465A),
06 Nov 2010/01 Sep 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Opto Elect

Hav Landa Bairagi Reddy (No. 14619189L now JC-
765486W), 02 Nov 2010/01 Nov 2010*

*Gtd ante dated seniority

Hav to be Nb Sub Tech Comm

Hav Gurdas Ram (No. 14575244N now JC-765523Y),
26 Nov 2010/01 Nov 2010*

Hav Atul Chandra Sakia (No. 14574908K now JC-
765522W), 26 Nov 2010/01 Nov 2010*

Hav to be Nb Sub Auto Tech B Veh

Hav Vijay Kumar Pankaj (No. 14574352L now JC-765456Y),
26 Nov 2010/01 Nov 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Net Working

Hav Rajeev Kumar Rajpoot (No. 14608928M now JC-
765547H), 19 Dec 2010/01 Dec 2010*

Hav to be Nb Sub Tech (SA)

Hav Mahendra Singh (No. 14602254K now JC-765900K),
01 Mar 2011

Hav to be Nb Sub Welder

Hav Subhash Chandra (No. 14582634Y now JC-765839L),
17 Feb 2011/01 Feb 2011*

Hav Kamal Deo Prasad Singh (No. 14584250H now JC-
765843N), 01 Feb 2011

Hav to be Nb Sub SKT

Hav Shatruhan Prasad Shukla (No. 14588781K now JC-
765932M), 01 Mar 2011

Hav to be Nb Sub Master Tech Gun

Hav Lal Jeet Chauhan (No. 14616247Y now JC-765812N),
01 Mar 2011

Hav Tapa Kumar Barik (No. 14617067H now JC-765813W),
01 Mar 2011

Hav to be Nb Sub Master Tech B Veh

Hav Krishan Kumar (No. 14619235P now JC-765178W),
05 Mar 2011/01 Aug 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Elect

Hav Srishar Nagabhyru (No. 14627374N now JC-765821P),
19 Feb 2011/01 Jan 2011*

* Gtd ante dated seniority

To be Sub DW

Nb Sub Murgappa Maharudura Koshti (JC-762485H),
01 Nov 2010

Nb Sub P Durai Samy (JC-762481M), 01 Nov 2010

Nb Sub Bhooshan Singh (JC-762479P), 01 Oct 2010

To be Sub SKT

Nb Sub Ameen Ahmed (JC-763128M), 01 Nov 2010

Nb Sub Ashok Kumar Singh (JC-763130K), 01 Nov 2010

Nb Sub Sohan Singh (JC-763129P), 01 Nov 2010

Nb Sub Gopal Chandra Mohanty (JC-763137N), 01 Dec
2010

Nb Sub Joginder Pal (JC-763298W), 01 Dec 2010

Nb Sub Sanjit Singha Roy (JC-762872X), 29 Dec 2010/
01 Oct 2010*

To be Sub Master Tech Gun

Nb Sub Ram Diya (JC-759675K), 01 Nov 2010

Nb Sub Jeevan Singh (JC-759664X), 01 Nov 2010

Nb Sub Daya Shanker (JC-759652H), 01 Nov 2010

Nb Sub Binod Kumar Jha (JC-759663P), 01 Nov 2010

To be Sub Clk (SD)

Nb Sub Deepak Parashad Singh (JC-760545N), 01 Nov
2010

Nb Sub Bijaya Kumar Pradhan (JC-760666P), 01 Nov
2010

Nb Sub Raj Singh (JC-760589L), 01 Nov 2010

Nb Sub Mahammad Safi Khan (JC-760766A), 01 Dec
2010

To be Sub Tech SA

Nb Sub Krishan Murari (JC-760580W), 01 Nov 2010

Nb Sub Shivendra Pathak (JC-760578Y), 01 Nov 2010

To be Sub Auto Tech B Veh

Nb Sub Thondati Muni Ramaiah (JC-763867Y), 01 Dec
2010

To be Sub Master Tech Opto Elect

Nb Sub Hari prakash Sharma (JC-759604P), 01 Dec 2010

*Gtd ante dated seniority

NK Kashmira
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 292 dated 31 May 2011—The President is pleased
to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
ARMOURED CORPS

To be Nb Ris

Dfr Virendra Singh (No. 1099221H now JC-244713P),
01 Jan 2011

Dfr Sharvan Singh (No. 1089591P now JC-244722W),
15 Nov 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010
without effect on pay and allowances)

Dfr Mukesh (No. 1089254A now JC-244734L), 31 Dec
2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov
2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Naresh Kumar (No. 1089976M now JC-244735N),
01 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010
without effect on pay and allowances)

Dfr Gopal Singh (No. 1099027N now JC-244736W),
01 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010
without effect on pay and allowances)

Dfr Indralal (No. 15461056H now JC-244737Y), 01 Dec
2010

Dfr Shudir Kumar (No. 15461213K now JC-244754Y),
05 Jan 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010
without effect on pay and allowances)

Dfr Om Prakash (No. 1098989L now JC-2447758P), 01 Dec
2010

Dfr Harish Chandra Prasad Gupta (No. 1098657F now JC-
244759X), 01 Dec 2010

Dfr Dadaso Patil (No. 1099541X now JC-244761P), 01 Jan
2011

Dfr Ramesh Kumar Thakur (No. 1546710Y now JC-244762),
01 Jan 2011

Dfr Murkute Balasaheb Suryabhan (No. 1099081F now
JC-244768Y), 16 Dec 2010

Dfr Ajay Singh (No. 1099084P now JC-244769F), 01 Jan
2011

Dfr Arvind Kumar (No. 1099379L now JC-244770W),
01 Jan 2011

Dfr Sattaue Ugadi Rao (No. 15461428H now JC-24472F6),
23 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2010
without effect on pay and allowances)

Dfr Balastar Singh Tomar (No. 15461906F now JC-
244798W), 08 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec
2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Harish Chandra Singh (No. 15461729M now JC-
244800H), 11 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010
without effect on pay and allowances)

Dfr Sanjay Kumar Singh (No. 15463933K now JC-244802N),
23 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec
2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Baljeet Singh (No. 15462037K now JC-244808P),
04 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010
without effect on pay and allowances)

Dfr Balwant Kumar (No. 15464671L now JC-244809X),
04 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010
without effect on pay and allowances)

Dfr Jaspal Singh (No. 15463199F now JC-244810M),
04 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010
without effect on pay and allowances)

Dfr Paramjit Singh (No. 15464713M now JC-244812X),
04 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010
without effect on pay and allowances)

Dfr Subhash Chand (No. 15461786N now JC-244813A),
04 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010
without effect on pay and allowances)

Dfr Siya Ram Yadava (No. 1099764P now JC-244817W),
21 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010
without effect on pay and allowances)

Dfr Joginder Singh (No. 1099284L now JC-244830A),
28 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010
without effect on pay and allowances)

Dfr Mukesh Kumar (No. 15461017K now JC-244831H),
28 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010
without effect on pay and allowances)

Dfr Gulab Singh Champawat (No. 1099187N now JC-244833N), 28 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Raj Kumar (No. 1098882W now JC-244837K), 01 Jan 2011

Dfr Daya Ram (No. 15462827Y now JC-244838M), 05 Jan 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Dfr Lakhan Singh (No. 1089794Y now JC-244839P), 01 Jan 2011

Dfr Ranvijay Kumar (No. 15461833A now JC-244846L), 11 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Hundre (No. 15461892M now JC-244847N), 11 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Niranjan Dhara (No. 15461829X now JC-244845H), 11 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Kailash Chand Jat (No. 1089931M now JC-244854K), 23 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Murli Dhar Mankas (No. 1099462H now JC-244856P), 03 Jan 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Gilake Anil Namdeo (No. 15462354L now JC-244857X), 28 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Ravinder Kumar (No. 15461322W now JC-244862H), 27 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 08 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Surendra Prasad Kushwaha (No. 15463605W now JC-244864N), 27 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 08 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Vilas Patil (No. 15463507W now JC-244865W), 27 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 08 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Bhupinder Singh (No. 15461857K now JC-244883Y), 16 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 10 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Jamail Singh (No. 1089885H now JC-244890P), 21 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Deb Kumar Biswas (No. 15461442P now JC-244891X), 17 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 08 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Jay Karan Singh Tomar (No. 1089202K now JC-244893H), 16 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 11 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Kulwant Singh (No. 15463398P now JC-244894L), 23 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Madhukar G (No. 1099405F now JC-244900N), 01 Jan 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 23 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Shambhu Nath Tiwari (No. 1089168P now JC-244904K), 03 Jan 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Satyawar Singh (No. 15462950X now JC-244908A), 03 Jan 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 27 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Rai Singh Gujar (No. 15463264W now JC-244909H), 03 Jan 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 27 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Ramen Baro (No. 1089785X now JC-244916Y), 04 Jan 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Prasiddha Narayan Yadav (No. 1546164H now JC-244918K), 05 Jan 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 28 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Thota Bhaskara Rao (No. 15461431H now JC-244917F),
05 Jan 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 28 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Rama Chandra Dash (No. 15461843K now JC-244920F), 05 Jan 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 28 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Sanjay Kumar Pandey (No. 15461351L now JC-244923P), 01 Jan 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Ris wef 24 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Bharat Singh (No. 1546409X now JC-244924X), 01 Jan 2011

J ROY CHOWDHURY
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 293, dated 31st May 2011—The President is pleased to make the following appointment/promotions:—

Name of Person & Promotion and Date of Promotion

Rachel Kochu Kunju, Senior Private Secretary, 01 Feb 2010

Subhash Chander, Senior Private Secretary, 01 Oct 2010

Puran Chand, Senior Private Secretary, 03 Aug 2010

MD Bhosale, Private Secretary, 05 Aug 2010

Cynthia Christy, Private Secretary, 13 Aug 2010

Usha Rani Sood, Private Secretary, 01 Oct 2010

R K Sahni, Private Secretary, 05 Jul 2010

R K JHA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 294, dated 1 June 2011—

CORRIGENDA

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 08 Apr 2006 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", "Punishment", the following amendment is made:—

Against: (IC-46003M), Lt Col OP Pharswan, Engrs

For

To forfeit five years past service for the purpose of promotion.

To forfeit five years of past service for the purpose of pension, and

To be severely reprimanded.

Read— Blank

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification Part I Section IV published on 16 Dec 2006 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Maj to be Lt Col" the following amendment is made:—

For—22 Apr 2006

Read—16 Dec 2004

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification Part I Section IV published on 28 Jun 2008, 19 July 2008, 02 May 2009, 28 Sep 2009 and 27 Nov 2010 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Maj to be Lt Col" the following amendment is made:—

For—10 Dec 2007

Read—11 Dec 2007

PRABHAT ROSS
Dy Dir
MS-8C

ARMY BRANCH

No. 295, dated 1st June 2011—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

CORRIGENDA

In the Ministry of Defence Notification No 713 dated 26 Nov 2010 published in the Gazette of India Serial No. 01 dated 01 Jan 2011 under heading "Regular Army" Sub heading "Records the MIR" below:—

To be Subs Sub Maj (RT)

For

Sub (RT) Ashok Kumar (JC-14320082W), 01 Jul 2010*

Read

Sub (RT) Ashok Kumar (JC-143082W), 01 Jul 2010*

For

Sub (RT) Murli Manohar Lakhera (JC-14320080L), 02 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (RT) wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Read

Sub (RT) Murli Manohar Lakhera (JC-143080L), 02 Aug 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (RT) wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

For

Sub (RT) Dayadhar Bhartola (JC-14320083Y), 02 Aug 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (RT) wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Read

Sub (RT) Dayadhar Bhartola (JC-143083Y), 02 Aug 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (RT) wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

For

Sub (RT) Gajanand Sharma (JC-14320086M), 01 Aug 2010*

Read

Sub (RT) Gajanand Sharma (JC-143086M), 01 Aug 2010*

For

Sub (RT) Kamlapati (JC-14320084F), 02 Aug 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (RT) wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Read

Sub (RT) Kamlapati (JC-143084F), 02 Aug 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (RT) wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

In Ministry of Defence Notification No 275 dated 06 May 2010 pub in Gazette of India No 22 dated 29 May 2010 under the heading "Regular Army" sub heading 'Armoured Corps' below to be 'Nb Ris' Page No 860.

To be Nb Ris

For

Dfr (Gnr/Opr) Gunjal Sunil Khandu (No. 1087618H now JC-243797F), 09 Nov 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Read

Dfr (Gnr/Opr) Gunjal Sunil Khandu (No. 1087618H now JC-243797F), 09 Oct 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

In Ministry of Defence Notification No 550 dated 01 Sep 2010 pub in Gazette of India No 41 dated 09 Oct 2010 under the heading "Regular Army" sub heading 'Armoured Corps' below to be 'Nb Ris' Page No 1854 and 1955.

To be Nb Ris

For

Dfr Suresh Kumar (No. 1087765L now JC-244017X), 17 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Sanjeevan Singh (No. 15461488X now JC-244190F), 17 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Read

Dfr Suresh Kumar (No. 1087765L now JC-244017X), 17 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr Sanjeevan Singh (No. 15461488X now JC-244017X), 17 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

In Ministry of Defence Notification No 206 dated 06 Apr 2010 pub in Gazette of India No 17 dated 07 May 2010 under the heading "Regular Army" sub heading 'Armoured Corps' below to be 'Nb Ris' Page No 674.

To be Nb Ris

For

Dfr Samaso Kamar Ansari (No. 15461527L now JC-243779Y), 15 Sep 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 2009 without effect on pay and allowances)

Read

Dfr Samaso Kamar Ansari (No. 15461527L now JC-243779Y), 15 Sep 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

In Ministry of Defence Notification No 399 dated 25 Jun 2010 pub in Gazette of India No 31 dated 31 Jul 2010 under the heading 'Regular Army' sub heading 'Armoured Corps' below to be 'Nb Ris' Page No 1286.

To be Nb Ris

For

Dfr Azad Singh (No. 1099092N now JC-244031K), 26 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Read

Dfr Azad Singh (No. 1099092N now JC-244031K), 26 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 06 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

In Ministry of Defence Notification No 164 dated 15 Mar 2010 pub in Gazette of India No 14 dated 03 Apr 2010 under the heading "Regular Army" sub heading 'Armoured Corps' below to be 'Nb Ris' Page No 540 and 542.

To be Nb Ris

For

Dfr (Gnr/Opr) Dinesh Kumar (No. 1089408F now JC-243659A), 21 Jul 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Raj Kishore Baitha (No. 1099268N now JC-243488Y), 17 Feb 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Read

Dfr (Gnr/Opr) Dinesh Kumar (No. 1089408F now JC-243659A), 21 Jul 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Raj Kishore Baitha (No. 1099268N now JC-243488Y), 17 Feb 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

J ROY CHOWDHARY
Under Secy